

ईरान-इजराइल में मिसाइल जंग तेज, इजराइल में 8 की मौत, कई घायल, ईरानी राष्ट्रपति बंकर में जा छिपे

अमेरिकी दूतावास भी बना निशाना, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयास तेज

तेल अवीव 16 जून (निस) ईरान ने सोमवार को सेंट्रल इजराइल में कई स्थानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें 8 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले चार दिनों में यह इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अब तक ईरानी हमलों में इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से अधिक घायल हैं। वहीं ईरान में अब तक 224 लोगों की मौत और 1,277 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई है। एक अमेरिकी मानवाधिकार संगठन का दावा है कि ईरान में अब तक 406 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल का जवाबी हमला- इजराइली सेना ने दावा किया है कि



उसने ईरान के 30व मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इसके लिए 50 से अधिक फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया और 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्गिंग सिस्टम को नष्ट किया गया।इजराइली एयरफोर्स ने रविवार को तेहरान में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवाल्यूशनरी गार्ड

कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी हसन मोहकिक समेत 4 खुफिया अफसरों की मौत हो गई। यह हमला ईरान के खुफिया ढांचे पर बड़ा झटका माना जा रहा है। तेहरान में इजराइली हमलों से मची भगदड़, बॉर्डर की ओर भागने लगे लोग... सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम ईरान की राजधानी तेहरान इस समय इजरायली हमलों के चलते गहरे संकट में है। लगातार हो रही बमबारी, मिसाइल हमलों और बढ़ती मौतों ने शहर को डर और दहशत के साए में

भारत-साइप्रस मध्य रक्षा सहयोग एवं निवेश बढ़ाने पर सहमति, पीएम ने कहा -विश्वसनीय मित्र देश

युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता, साइप्रस ने नवाजा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

निकोसिया 16 जून(निस)प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिलेस के साथ निकोसिया में एक व्यापार जगत के लोगों के साथ गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया और व्यापार, निवेश एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसमें“विकास की अपार संभावनाएं नरेन्द्र मोदी ने रविवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिलेस के साथ गोलमेज बैठक में भारत और साइप्रस के व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित किया। व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों में “विकास की अपार संभावनाओं पर



प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “साइप्रस लंबे समय से भारत का एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिलेस और मैंने भारत और साइप्रस के बीच

वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अग्रणी सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, “नवाचार,

सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, “साइप्रस के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय’ सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूँ।” साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिलेस ने मोदी को सम्मानित किया। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया है। मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को यह सम्मान समर्पित करते हुए कहा कि यह भारत-साइप्रस की भरोसेमंद दोस्ती का सम्मान है।

टायर फटने से सवारियों से भरी पिकअप पलटी, 5 की मौत, कई घायल



सारण, 16 जून (निस) बिहार में सारण जिले के बाजितपुर गांव के पास नेशनल हाइवे-19 पर एक मालवाहक पिकअप गाड़ी का टायर फटने से वह पलट गया और इसमें पांच लोगों की मौत हो गई। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस दुर्घटना की खबर जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को हुई, तो वो भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पलटे वाहन को सीधा करके दबे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भयावह सड़क दुर्घटना में पांच ग्रामीणों की मौत हुई है, जबकि 15 के घायल हैं। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मृतकों की पहचान सारण जिले के दिधवारा थाना क्षेत्र में रहने वाले राज कुमार पंडित की पत्नी अंजू देवी (48), राजू बैठा की पत्नी राधिका देवी (50), श्रवण राम के पुत्र सोनू कुमार (23), राजलक्ष्मी (15),शिवम कुमार (7) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार सुबह हुई, जब दिधवारा थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी ये सभी ग्रामीण अपने-अपने मक्के की बोहरियों को ले जा रहे थे।

महापौर शहरों के विकास एवं प्रगति के अहम सारथी-सीएम सैनी, शहरी विकास पर फोकस

चंडीगढ़, 16 जून (अमृतपाल सिंह) हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महापौर अपने-अपने शहरों के प्रथम नागरिक होने के साथ-साथ वाहं के विकास और प्रगति के प्रत्यक्ष सारथी भी हैं। उन्होंने कहा कि महापौर सरकार की नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, नागरिकों की आकांक्षाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना में महापौर रीढ़ के समान हैं। मुख्यमंत्री श्री सैनी आज पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय महापौर कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।



शहर आर्थिक विकास के इंजन और नवाचार के केंद्र - मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में महापौर जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। यह व्यवस्था नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच मजबूत सेतु बनाती है और निर्णय प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाती है। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब शहरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर केवल निवास स्थान नहीं हैं, बल्कि आर्थिक विकास के इंजन, नवाचार के केंद्र और शी, जिससे 2025-26 में बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं और फरीदाबाद व करनाल को अर्बनाइजेशन को चुनौती नहीं, अवसर

मानते हैं। हमारा विजन है कि शहर ‘इंज ऑफ लिविंग’ और ‘इंज ऑफ ड्रूंग बिजनेस’ का संगम बनें। हमें शहरों को केवल इमारतों और सड़कों का ढांचा नहीं बनाना, बल्कि उन्हें जीवंत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भी बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत की लगभग 900 मिलियन आबादी शहरों में निवास करेगी। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना है। नए अवसरों, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर और नए जीवनशैली की। हमें इस परिवर्तन को सुनियोजित शहरीकरण, डिजिटल एकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनाना है।हरियाणा में शहरी विकास को मिली गति - मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 2014-15 में 1,693 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी, जिससे 2025-26 में बढ़ाकर 5,666 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चार मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं और फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया

सरकारों, एएआईबी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राहत, बचाव और जांच कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। रिलीज के मुताबिक जो रविवार को अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रधान सचिव ने जैश साइट का निरीक्षण किया और सिविल अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। पीएम के प्रधान सचिव ने सर्किट हाउस में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र और राज्य



एएआईबी ने इस दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है साथ ही विमान अमेरिकी निर्मित होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड भी अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत समानांतर जांच कर रहा है। प्रधान सचिव ने दुर्घटना स्थल का

गरीब विरोधी है मोदी सरकार, मनरेगा को खत्म करने में जुटी-खड़गे का आरोप

नई दिल्ली, 16 जून (निस) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म करने में लगी है और इस योजना में आकर अपनी जान गंव चुके हैं। इन घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान प्रयागराज जिले में हुआ है, जहां 4 लोगों की मौत हुई। लोगों का कहना है कि तेज बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरी, जिससे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं जौनपुर में आकाशीय बिजली से 3 लोगों की जान गई। गोरखपुर और ललितपुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। बरेली में तेज बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं ने लोगों के साथ-साथ प्रशासन को भी सतर्क किया है।सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन हादसों पर दुख जताया है।



कटीती करना संविधान के ख़िलाफ अपराध है।खड़गे ने कहा कि क्या ऐसा मोदी सरकार केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वे गरीबों की जेब से करीब 25,000 करोड़ छीनना चाहती

है, जो कि हर साल, साल के अंत तक, डिमांड से ज्यादा होने पर अगले वित्तीय वर्ष में अलग से खर्च करने पड़ते हैं? उन्होंने दूसरा सवाल किया कि चूँकि मनरेगा एक मांग- के साथ आने वाली योजना है, इसलिए यदि आपदाओं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पहली छमाही के दौरान मांग में डिमांड की वृद्धि होती है, तब क्या होगा? क्या ऐसी सीमा लागू करने से उन गरीबों को नुकसान नहीं होगा जो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं?

सुनील जाखड़ ने ड्रग मनी ट्रेल की जांच के लिए सीएम भगवंत मान को लिखा पत्र

चंडीगढ़, 16 जून (निस) पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर



पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रत्यक्ष निगरानी में 'ड्रग मनी ट्रेल की 'समयबद्ध' एजेंसी या बहु-एजेंसी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में पंजाब के कई राजनेताओं की किस्मत चमक उठी है, क्योंकि जो विधायक साइकिल से आते थे, उनके पास अब लज्जरी कारें और फार्म हाउस हैं, जो कि

महज संयोग नहीं हो सकता।बीजेपी अध्यक्ष जाखड़ ने सीएम मान को लिखे पत्र में कहा कि वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की प्रत्यक्ष निगरानी में तत्काल जांच की आवश्यकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं, ताकि ड्रग मनी ट्रेल में शक्तिशाली और प्रभावशाली आँखें लाभार्थियों का पता लगाया जा सके, जो कि पंजाब को परेशान करने वाला प्राथमिक श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर

लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन

आतिशी ने कामकाज के दम पर वोट मांगे तो कांग्रेस व भाजपा ने किए सरकार पर तीखे वार

लुधियाना 16 जून (निस) लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। सोमवार को विभिन्न दलों के बड़े नेताओं ने चुनावी सभाएं की एवं एक दूसरे पर तीखे हमले किए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी, भाजपा की मौजूदा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कांग्रेस नेत्री अल्का लांबा सहित कई नेता चुनावी मैदान में दिखे। मंगलवार को प्रचार का अंतिम दिन है। आतिशी की चुनावी सभा-19 जून को लुधियाना हलका वेस्ट के उपचुनाव को दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने वार्ड नंबर 58 के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान यह घोषणा कर चुके हैं कि 23 जून को जैसे परिणाम सामने आएंगे। 24 जून को संजीव अरोड़ा मंत्री पद



इसलिए अपने हलके के विकास के लिए एक मंत्री को चुनना सबसे अच्छा रहेगा। कुछ इसी अंदाज में रविवार को दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने वार्ड नंबर 58 के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान यह घोषणा कर चुके हैं कि 23 जून को जैसे परिणाम सामने आएंगे। 24 जून को संजीव अरोड़ा मंत्री पद

की शपथ लेंगे। इसलिए हलका वेस्ट के लोग एक मंत्री को चुनने जा रहा है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि मतदान के दिन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन हमारा वोट किसी एक व्यक्ति को चुनता है। अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को जीता दिया तो उसका दर्द हमें अगले चार या पांच साल तक झेलना पड़ता है। इस फैसले को दोबारा बदला भी

नहीं जा सकता है। हलका वेस्ट में एक तरफ प्यार से बात करने वाले अरोड़ा हैं, दूसरी तरफ अहंकार है। बीते तीन माह से संजीव अरोड़ा हलके में अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों का काम करवा रहे थे। दिल्ली की सीएम की चुनावी सभा- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में दस साल के शासन के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में नए मामले दर्ज किए गए हैं। जो लोग वर्तमान में जमानत पर हैं, उन्हें जल्द जेल हो सकती है। यह कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर

सम्पादकीय

इजराइल का ईरान पर हमला: तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत?

विश्व स्तर पर तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया है। इससे ईरान का आसमान सफेद, काले, नारंगी और लाल रंग के धुंए से पट गया। इस हमले में 300 से अधिक मिसाइलें दागी गईं। नताज सहित कई न्यूक्लियर साइट्स को इस हमले में निशाना बनाया गया है। इजराइल ने दावा किया है, कई परमाणु वैज्ञानिकों की हमले में मौत हुई और ईरान को भारी नुकसान हुआ है। यह हमला इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ऑपरेशन राइजिंग लायन का हिस्सा बताया गया है। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए किया गया है। इस हमले में अमेरिका की भी मूक सहमति है। खुले तौर पर अमेरिका इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हमले के बाद ईरान ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी देकर ड्रोन से इजरायल पर हमला शुरू कर दिया है। तेहरान ने इसे युद्ध की घोषणा मानते हुये कहा कि ईरान ऐसा जवाब देगा, जिससे इजराइल कांप उठेगा। विदेशी मामलों के जानकार एवं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, कि यह हमला क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ने से तेल और गैस की आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है। होर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का 40 फीसद से अधिक तेल का परिवहन कई देशों के लिए होता है, उसके ब्लॉक होने से सारी दुनिया के जनजीवन और व्यापार को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत ने फारस की खाड़ी से गुजरने वाली सभी उड़ानों को वापस बुला लिया है। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स 1000 अंक तक लुढ़क गए हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अमेरिका ने इस हमले को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों का दावा है, नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। ईरान के साथ भारत की बहुत पुरानी दोस्ती है। विश्लेषकों ने इजराइल की इस कार्रवाई को परमाणु अपराध निरूपित किया है। इजराइल ने अभी जो इराक के ऊपर हमला किया है। यह हमला विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के 75 वर्षों बाद पहली बार न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है। ईरान के जवाबी हमले से आसपास के देशों की प्रतिक्रिया से स्थिति विस्फोटक होना तय है। विश्व समुदाय ईरान पर हुए हमले के बाद संयम और कूटनीति की अपील कर रहा है। क्या इससे यह संकट टल पाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरान और गाजा को निशाना बना रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में भारी विरोध हो रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने भी इजराइल के कंधे पर सवार होकर सारी दुनिया को भयाक्रांत करने में लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिस तरह से आतंक फैला रहे हैं, उससे सारी दुनिया परेशान है। नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात नहीं मानी, मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो नियम युद्ध के लिए बनाए गए थे उनका भी पालन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की मनमानी अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं उसके बाद अब यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर किए गए हमले के बाद विश्व युद्ध को रोका जाना संभव नहीं है। परमाणु ठिकानों पर हमला करके वैश्विक आबादी के लिए जो खतरा पैदा किया गया है वह इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। इस हमले के बाद दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था तथा परमाणु हमले की आशंका के चलते जिस तरह का वातावरण बन गया है उसमें भारी तबाही होना तय माना जा रहा है। वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा वैश्विक नेता नहीं है जो इस युद्ध की आशंका को रोक सके। सभी बड़ी-बड़ी महाशक्तियां इस विनाशकारी युद्ध की आग में घी डालने का काम करके युद्ध को भड़काने का काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपना वजूद खो चुके हैं। ऐसी हालत में 75 वर्षों से जो नहीं हुआ था अब वह होने जा रहा है। एक बार फिर सारी दुनिया विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। समय रहते यदि इसे नहीं रोका गया तो विनाशकारी परिणाम बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। पिछले तीन दशक में छोटे-छोटे देशों के पास भी नवीन तकनीकी के हथियार जो बड़े विनाशकारी साबित हो रहे हैं ऐसी स्थिति में एक बार युद्ध शुरू हुआ तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। भारत को इस स्थिति में पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध और विदेशनीति में सुधार करने की ज़रूरत है। गुटनिरपेक्ष देश के रूप में अब भारत की पहचान नहीं रही, जिसके कारण भारत वह भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय भारत भूमिका अदा करता था। समय रहते भारत को इस विषम स्थिति में बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। भारत और ईरान के हजारों वर्ष पुराने संबंध हैं। भारत और रूस के बीच संबंध चीन और अमेरिका की तुलना में हमेशा मजबूत रहे हैं। भारत को बहुत सोच-समझ कर निर्णय लेने होंगे, तभी जाकर हम अपने आप को तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बचा कर रख पाएंगे।

– **ललित गर्ग**

(विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस –17 जून 2025)

मानव एवं जीव-जंतुओं का जीवन भूमि पर निर्भर है। फिर भी, पूरी दुनिया में प्रदूषण, भूमि का दोहन, जलवायु अराजकता और जैव विविधता विनाश का एक जहरीला मिश्रण स्वस्थ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है और संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र मृत क्षेत्रों में बदल रहा है। ‘हमारी भूमि’ नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण आज की जलवायु समस्याओं का सटीक समाधान हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों को एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ‘भूमि के लिए एकजुट’। हमारी विरासत। हमारा भविष्य’ है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिवस पर भूमि के महत्व और इसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कोलंबिया गणराज्य इस वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के वैश्विक आयोजन की मेजबानी करेगा, जो प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से भूमि क्षरण को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता को

रेखांकित करता है। बोगोटा में आयोजित यह कार्यक्रम स्थिरता, शांति और समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में भूमि बहाली एवं सूखा निवारण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा, साथ ही भोजन, पानी, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्वस्थ भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देगा।स्वस्थ भूमि संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा से अधिक हिस्सा प्रकृति पर निर्भर है। फिर भी हम इस प्राकृतिक पूंजी को खतरनाक दर से नष्ट कर रहे हैं- हर मिनट, भूमि क्षरण के कारण चार फुटबॉल मैदानों के बराबर भूमि नष्ट हो जाती है। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है, सूखे का खतरा बढ़ता है और समुदाय विस्थापित होते हैं। इसके प्रभाव वैश्विक हैं-खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से लेकर अस्थिरता और पलायन तक। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से हैं तथा विश्वभर में 40 प्रतिशत भूमि क्षेत्र पहले से ही क्षरित माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक 2021-2030 के आधे पड़ाव पर पहुंचने के साथ ही, हमें भूमि क्षरण की लहर को बड़े पैमाने पर बहाली में बदलने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। यदि मौजूदा रुझान जारी रहे, तो



हमें 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करना होगा और एक ट्रिलियन डॉलर की भूमि की घोषणा की। बढ़ते मरुस्थल के होगी। भूमि को पुनःस्थापित करें, अवसरों को खोलें थीम के अंतर्गत, इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रकृति की नींव-भूमि-को पुनःस्थापित करने से किस प्रकार रोजगार सृजित हो सकते हैं, खाद्य और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है, जलवायु कार्रवाई का समर्थन किया जा सकता है और आर्थिक लचीलापन निर्मित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से उन शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, इन स्थानों पर सबसे कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय सहयोग से उपजाऊ भूमि को मरुस्थल होने से बचाता, बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने एक

प्रस्ताव में बंजर और सूखे से जुड़े मुद्दे पर जन जागृति का माहौल निर्मित करने के लिये इस दिवस की घोषणा की। बढ़ते मरुस्थल के प्रति सचेत होना इसलिये जरूरी है कि दुनिया हर साल 24 अरब टन उपजाऊ भूमि खो देती है। मरुस्थलीकरण से बचाव के लिए जल संसाधनों का संरक्षण तथा समुचित मात्र में विवेकपूर्ण उपयोग काफी कारगर भूमिका अदा कर सकती है। मरुस्थलीकरण एक तरह से भूमि क्षरण का वह प्रकार है, जब शुष्क भूमि क्षेत्र निरंतर बंजर होता है और नम भूमि भी कम हो जाती है। साथ ही साथ, वन्य जीव व वनस्पति भी खत्म होती जाती है। इसकी कई वजह होती हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां प्रमुख हैं। इसे रेगिस्तान भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2025 तक दुनिया के दो-तिहाई लोग जल संकट की परिस्थितियों में रहने को मजबूर होंगे। उन्हें कुछ ऐसे दिनों का भी सामना करना पड़ेगा जब

आईएसआई का छिपा चेहरा है मोहम्मद युनूस

–**बी पी गौतम**

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस के क्रिया-कलापों से अब स्पष्ट हो गया है कि वे पाकिस्तान और आईएसआई का चेहरा हैं। बांग्लादेश अब, उस राह पर चल रहा है, जिस राह पर कट्टरपंथी और आईएसआई चलाना चाहती थी, इसीलिये 1949 में गठित हुई, उस आवामी लोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसने 1971 में मुक्ति संग्राम का नेतृत्व किया था और मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लाभाषियों की हत्या एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाली जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया गया है, साथ ही फ्रांसी की सजा पा चुके एटीएम अजहरूल इस्लाम को दोष मुक्त कर दिया गया है एवं मोहम्मद युनूस चीन की गोद में बैठने को उतावले दिखाई दे रहे हैं। उदारवादी बांग्लादेश को कट्टरपंथी देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मोहम्मद युनूस का चेहरा बेनकाब हो गया है, वे अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, इसलिये वे जहां भी जाते हैं, वहां उनके विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किये जाते हैं, इस स्टोरी में

बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों पर ही चर्चा कर रहे हैं बीपी गौतम... ब्रिटेन में हुआ यूनुस का जोरदार विरोध -बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ब्रिटेन के लंदन में प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सैकड़ों ब्रिटिश बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस के होटल के बाहर जमा हो गये और यूनुस गो बैक के नारे लगाने लगे। अवामी लीग की यूके शाखा और अन्य संबंधित संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, लिंचिंग, हत्याओं और बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कारियों ने तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था कि यूनुस भीड़तंत्र के निर्माता, जिहादियों को मुक्त करने और देशभकों को जेल में डालने वाले हैं, उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस के खिलाफ नारे लगाये और उनके पुतले को जूतों की माला पहनाई। मोहम्मद यूनुस और उनके प्रेस सचिव शफीकुल आलम की तस्वीरें कूड़ेदान में डाल दी गईं। अवामी



लीग समर्थकों ने सड़कों पर बैनर और पोस्टर लेकर शेख हसीना के समर्थन में नारे लगाये। यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, उन्हें प्रदर्शनकारियों से बचने के लिये पिछले दरवाजे से होटल से बाहर निकलना पड़ा लेकिन, प्रवासी को राजनीतिक बयान देने से रोकने के लिये पीएम मोदी से अपील की थी। लंदन के चैटम हाउस में बातचीत के दौरान यूनुस ने कहा कि भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के प्रयास जारी रहेंगे, उन्होंने कहा कि भारत से हम बहुत अच्छे रिश्ता रखना चाहते हैं, वह हमारा पड़ोसी है, हम उनके साथ कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं लेकिन, स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और भारतीय प्रेस के फेक न्यूज के कारण हर समय कुछ न कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश को आशंकित करता है और गुस्सा दिलाता है, हम इस पर बहुत काबू पाने की कोशिश करते

प्रयास न करने के लिये यूनुस को दोषी ठहराया है। शेख हसीना के बोलने पर भी है यूनुस को आपत्ति रहे की कोशिश करते हैं, अचानक कुछ घटित होता है और फिर गुस्सा लौट आता है, इस समय हमारे लिये मुझे बताना है कि युनुस ने 2026 में चुनाव कराने की घोषणा -बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुस ने शुक्रवार को घोषणा करते हुये कि अगला राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में आयोजित किया जायेगा। ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की विस्तृत रूपरेखा पेश करेगा। युनुस ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरिम सरकार तीन मुख्य उदेश्यों सुधार, न्याय और चुनाव के आधार पर सत्ता में आई है। युनुस ने कहा कि सरकार ने लोकप्रियता बांग्लादेश में भी लगातार कम होती दिख रही है। अंतरिम सरकार और बांग्लादेश की सेना के अंदर तनाव बढ़ गया है, कई लोगों ने पिछले साल शेख हसीना को हटाये जाने के बाद देश को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त

हैं लेकिन, साइबर स्पेस में बहुत सी चीजें घटित होती रहती हैं और हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं। मोहम्मद युनूस ने कहा कि हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, अचानक कुछ घटित होता है और फिर गुस्सा लौट आता है, इस समय हमारे लिये मुझे बताना है कि युनुस ने 2026 में चुनाव कराने की घोषणा -बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुस ने शुक्रवार को घोषणा करते हुये कि अगला राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में आयोजित किया जायेगा। ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की विस्तृत रूपरेखा पेश करेगा। युनुस ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरिम सरकार तीन मुख्य उदेश्यों सुधार, न्याय और चुनाव के आधार पर सत्ता में आई है। युनुस ने कहा कि सरकार ने लोकप्रियता बांग्लादेश में भी लगातार कम होती दिख रही है। अंतरिम सरकार और बांग्लादेश की सेना के अंदर तनाव बढ़ गया है, कई लोगों ने पिछले साल शेख हसीना को हटाये जाने के बाद देश को बेहतर बनाने के लिये पर्याप्त

इजराइल-ईरान संघर्ष के बीच हो रहे जी-7 से उम्मीदे

– **डॉ हिदायत अहमद खान**

रटंट तोते की तरह दुनिया के अधिकांश देशों के कर्ता-धर्ता बुलंद आवाज में यह तो कहते सुने जाते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इस युद्ध रुपी जाल में वही फंसेत हुए दिख जाते हैं। यदि यकीन नहीं होता तो पिछले दो दशक के आंकड़े उठाकर देख लें, यकीन हो जाएगा। अधिकांश देश अपनी सीमा के अंदर और सीमा पार से उपजती समस्याओं का समाधान बातचीत से निकालने की बजाय एक-दूसरे पर हिंसक कार्रवाई करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कहने को वर्तमान में अमेरिका की विश्व स्तर पर चौथराहट कायम है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप सरकार व्यापारिक लाभ को आगे रखकर फैसले ले रही है, उससे दुनियां के देश शांति का रास्ता छोड़ हिंसा की राह

अपनाने को मजबूर होते चले जा रहे हैं। फिर चाहे मामला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व शासनकाल की बात हो या फिर वर्तमान में लिए जा रहे कल्पनातीत फैसले हों। इससे हटकर एक तरफ रुस और यूक्रेन के बीच एक लंबा युद्ध का इतिहास लिखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमारा के हमले के बाद इजराइल ने गाजा का जो हाल किया, उसे देख दुनियां कराह उठी है। नौनिहाल बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत बीमार लोगों की बड़ी तादात इजराइली हमलों में इस दुनियां को सदा के लिए अलविदा कह चुकी है। खूबसूरत दिखने वाले मकानात और शहर के शहर खंडहर हो चुके हैं। अब खाने-पीने और इलाज नहीं होने के कारण नई आपात स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस समय यदि किसी को दुनियां में क्रूरता के साथ

इंसानियत कुचलने का प्रमाण देखने करें तो ईरान में वैज्ञानिकों और सैनिक कमांडरों से हटकर अब तक करीब 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि डेढ़ हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ‘टू-प्रॉमिस-श्री’ नामक अभियान के तहत पलटवार करते हुए सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनसे पांच लोगों की मौत हो गई और करीब 90 लोग जख्मी हो गए। इजराइली पक्ष का कहना है कि ईरानी हमलों में कुल 20 मौतें हुई हैं जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने भी इस युद्धक्षेत्र को ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ का नाम देते हुए दो-सौ से अधिक फाइटर जेट तैनात किए हैं। इस कार्रवाई में 14 ईरानी परमाणु-महत्व के वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। जवाबी कार्रवाई में ईरानी रिक्सॉल्यूशनरी गार्ड

मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो ईरान में वैज्ञानिकों और सैनिक कमांडरों से हटकर अब तक करीब 224 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि डेढ़ हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने ‘टू-प्रॉमिस-श्री’ नामक अभियान के तहत पलटवार करते हुए सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनसे पांच लोगों की मौत हो गई और करीब 90 लोग जख्मी हो गए। इजराइली पक्ष का कहना है कि ईरानी हमलों में कुल 20 मौतें हुई हैं जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने भी इस युद्धक्षेत्र को ‘ऑपरेशन राइजिंग लॉयन’ का नाम देते हुए दो-सौ से अधिक फाइटर जेट तैनात किए हैं। इस कार्रवाई में 14 ईरानी परमाणु-महत्व के वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। जवाबी कार्रवाई में ईरानी रिक्सॉल्यूशनरी गार्ड

(आईआरजीसी) ने इजराइल के तीन एफ-35 जेट गिराने, कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों के ध्वस्त करने तथा तेल-गैस संपदा पर हमले का संकल्प जताया है। दोनों देशों की राजनयिक गलियारे में असली कसौटी यही होगी कि वे इजराइल-ईरान युद्धविराम के लिए कोई ठोस खाका पेश कर पाते हैं या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, जिन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द शांति समझौता होगा, की कमर तोड़ दी है, यहां तक कि आईआरजीसी के वरिष्ठ जनरल मोहसेन रेज़ाई ने दावा किया कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान नया अंतरराष्ट्रीय पंचवैश्वकों की मौंग उठा सकता है, लेकिन बिना संयुक्त रूख के खंडन कर दिया, पर इस बयान ने परिणाम निकल पाना संभव नहीं लगाता है। जी-7 की भूमिका इस बार गहरा कर दिया है। ऐसे विस्फोटक इसलिए भी निर्णायक है कि मौजूदा दृश्य-पटल पर सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का मंच—जी-7 अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन खिंचा तो ब्रेंट क्रूड 150 डॉलर प्रति आयोजित कर रहा है। अमेरिका, बैरल लांघ सकता है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति की नई लहर उठेगी। भारत, और जापान के नेता ऊर्जा-सुरक्षा, चीन और उभरते एशियाई देश इसके ख़ाद्य-श्रृंखला और वैश्विक विकास गंभीर असर से खुद को बचा नहीं के मसले पर चर्चा को बैठेंगे, किंतु सकेंगे।

अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग : निरंजन लाल

करनाल, 16 जून (सुनील कुमार) : जिला खनन अधिकारी निरंजन लाल ने बताया कि महानिदेशक केएम पांडुरंग और उपायुक्त उत्तम सिंह के निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जांच अभियान जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को खनन विभाग और हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो की संयुक्त टीम में शामिल एसएसआई मोहन लाल, एसएसआई नवीन, ईएसआई राजेंद्र, माइनिंग गार्ड रोहतास द्वारा चैकिंग के दौरान घरौंडा के गांव हरिसिंह पुरा बस स्टैंड के पास रेत से भरी 2 ट्रैक्टर–ट्रालियों को पकड़ा गया। जिन ट्रैक्टर–ट्रालियों के चालको के पास बिल नहीं पाया गया। इसी कारण इन वाहनों को जब्त कर खनन विभाग की टीम द्वारा घरौंडा थाने में पहुंचाया गया है। खनन अधिकारी निरंजन लाल ने बताया अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जिला में अवैध खनन किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

सैनी समाज ने उठाई सीईटी एजाम की डेट बढ़ाने की मांग

सफींदों, 16 जून (एस.के मित्तल) : सैनी समाज हलका सफींदों की एक बैठक नगर के सैनी धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज के प्रधान सत्यवान सैनी बहादुरगढ़ ने की। बैठक में समाज के विभिन्न मुद्दों पर गहनता से विचार–विमर्श हुआ। सभी एकमत से फैसला लिया कि समाज के हित के अनेक कार्य हाथ में लिए जाएंगे तथा सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। वहीं बैठक में सरकार से मांग की गई कि सीईटी एजाम की तिथि आगे बढ़ाई जाए ताकि बच्चे से इस परीक्षा से वंचित ना रहे। वहीं यह भी मांग रखी गई कि इस परीक्षा के आवेदन में पुराने बैकवर्ड प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए। क्योंकि बैकवर्ड समाज के बच्चों को साईट सहीं रूप से ना चलने के कारण नया सर्टीफिकेट बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर नंबरदार जयनारायण सैनी, पूर्व प्रधान सतीश सैनी, पूर्व सरपंच सूबे सिंह सैनी रोजला, पार्षद सुनील सैनी, नाथू राम सैनी खेड़ा खेमावती, रविंद्र सैनी, गुरनाम सैनी खेड़ा खेमावती, मा. रमेश चंद्र पाजू खुर्द, सूरजमल सैनी बहादुरगढ़, फौजी सत्ता सैनी हाट, बनी सिंह सैनी सिंधपुरा, अमन सैनी, श्यामा सैनी, कप्तान सैनी सर्फाबाद, ईश्वर बेनीवाल, सुषमा लाटर, एडवोकेट नरेंद्र सैनी, राकेश सैनी कारखाना, महताब सैनी कारखाना, भूगु सैनी रोझला, हुकम सैनी सफींदों शहर, सतीश सैनी साहनपुर, रणबीर सैनी, विनोद सैनी पेंचरा, अश्वनी सैनी रत्ताखेड़ा, संजय सैनी खातला, जयभगवान सैनी बानियाखेड़ा, बलिंद्र बानियाखेड़ा विशेष रूप से मौजूद थे।

महिलाओं ने निकाली गांव में कलश यात्रा

असंध, 16 जून (दलसिह मान) : गांव गोली में सोमवार को सैकड़ो महिलाएं कलश यात्रा लेकर ठाकुर जुगल किशोर मंदिर पहुंची। जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना कर घर में सुख शांति की प्रार्थना की और भजन कीर्तन किया। आरंभिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने कलश यात्रा में उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चे व पुरुष भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाएं पारंपरिक गीतों पर नाचते हुए आगे बढ़ रही थी। कलश यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए बाबा राम वाला मंदिर तक पहुंची। यात्रा के समापन पर ठाकुर जुगल किशोर मंदिर में धार्मिक कथा का आयोजन किया गया। जहां कथा वाचक श्रीपाल दास ने प्रवचन करते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में सेवा धर्म और सदाचार के महत्व को समझाया। उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के माध्यम से यह संदेश दिया कि आध्यात्मिक जीवन केवल पूजा तक सीमित नहीं है,बल्कि सेवा और सहयोग भी उसना ही आवश्यक है।

मरणोपरांत नेत्रदान कर दो लोगों को रोशनी दी



करनाल, 16 जून (सोनी दुआ) : विकास नगर, करनाल निवासी 83 वर्षीय श्रीमती इंद्रकांता बख्शी का निधन होने पर परिजनों ने उनकी आँखें दान करने का निर्णय लेकर मानवता की उत्कृष्ट मिसाल दी। लक्ष्य जनहित सोसायटी के फाऊंडर व समाजसेवी दिनेश बख्शी ने अपनी माता के मरणोपरांत नेत्रदान करने के लिए इस सेवा में लगी संस्था माधव नेत्र केन्द्र, करनाल की टीम ने दिवंगत इंद्रकांता बख्शी के नेत्र सुरक्षित संचित किए। ताकि जरूरतमंद दो लोगों की जिन्दगी में रोशनी दी जा सके। माधव नेत्र केन्द्र की टीम में शामिल डॉ. चन्द्रमोहन चावला, राजकुमार अरोड़ा, अनु ग्रोवर और अनु मदान ने परिजनों के नेत्रदान सम्बन्धी निर्णय की सराहना करते हुए स्मृति चिन्ह देकर कृतज्ञता जताई।

उद्यान केयर होम में योग शिविर आयोजित

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उद्यान केयर होम में योगा शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस योग शिविर में बच्चों और स्टाफ को योगा का अभ्यास करवाया गया। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है।

वनवासी कल्याण आश्रम के भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में उमड़ी भीड़

हिसार, 16 जून (मनमोहन शर्मा) : वनवासी कल्याण आश्रम की हिसार इकाई द्वारा वनवासी छात्रों का स्वागत व भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के चौ. रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में दर्शकों को हरियाणवी, पंजाबी व जनजातीय संस्कृति में सामंजस्य देखने को मिला। वनवासी छात्रों की बेजोड़ प्रस्तुतियां देखकर दर्शक दंग रह गए। दर्शकों ने हर प्रस्तुति के उपरांत तालियां बजाकर छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया।

भिवानी में वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय व जम्मू–कश्मीर के विद्यार्थी शिक्षार्जन करते हुए देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इन सभी छात्रों को हरियाणा भ्रमण करवाया जा रहा है। हिसार पहुंचने पर इन छात्रों का मिलेनियम पैलेस में स्वागत–सत्कार हुआ और यहां तरणताल की सुविधा के साथ ही इनके नाश्ते की समुचित व्यवस्था रही। सायंकाल इन विद्यार्थियों में गुजवि के सभागार में अपनी प्रतिभा

आज का अघोषित आपातकाल देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खतरनाक : जरनैल सिंह

यमुनानगर, 16 जून (संजीव कुमार) : जन चेचना मंच जिला यमुनानगर की एक बैठक हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष जरनैल सिंह सांगवान की अध्यक्षता में एडवोकेट बलबीर सिंह के निवास स्थान पर यमुनानगर में हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 जून को देश में आपातकाल लागू होने के 50 वर्षों के हालात बारे एक सेमिनार किया जायेगा। बैठक को संबोधित करते हुए मंच के सदस्यों ने कहा कि 1975 के आपातकाल से आज का अघोषित आपातकाल देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खतरनाक है।

सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज

सफींदों, 16 जून (एस.के मित्तल): सफींदों पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए ब्यान में गांव रोझला निवासी अक्षय ने कहा कि 14 जून की देर रात्रि वह सफींदों से बाईक पर अपने गांव रोजला जा रहा था। जब वह नहर पुल के नजदीक पहुंचा तो गांव हाडवा निवासी अमित ने उससे लिफ्ट मांगी। जिसको वह पीछे बैठकर नहर पुल से चला तो एक गाड़ी चालक ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाकर उसकी बाईक में सीधी टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही वह व अमित बाईक समेत सड़क पर गिर गए। घटना को अंजाम देकर गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। परिजन व राहगीर उसे सफींदों के नागरिक अस्पताल में लेकर आए। इस दुर्घटना में उसकी टांग टूट गई। पुलिस ने अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सड़क दुर्घटना में महिला की मौत

सफींदों, 16 जून (एस.के मित्तल) : सफींदों पुलिस ने सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में अंकित निवासी गांव दंगदढ़ जिला जींद ने कहा कि 20 अप्रैल को उसके गांव का राकेश अपनी मोटरसाईकिल पर अपने पुत्र अनमोल तथा उसकी मां राजबाला को बैठकर गांव दंगदढ़ से सफींदों में सबल सिंह बोरी धाम पर पूजा–अर्चना के लिए जा रहा है। जैसे ही राकेश बाईपास सफींदों पर सुबह करीब सवा 10 बजे पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाईक को सीधी टक्कर दे मार दी। इस टक्कर में बाईक सवार तीनों नीचे गिरकर घायल हो गए। तीनों घायलों को सफींदों के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां से उनकी गंभीरावस्था को देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर पीजीआई खानपुर रैफर कर दिया गया। जहां पर 22 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मां गजबाला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।



व कुशलता से रंग जमा दिया।

वनवासी कल्याण आश्रम के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजवि के कुलपति प्रो. नरसीराम बिश्नोई मुख्यातिथि रहे और समाजसेवी राजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख विजय कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम के विविध आयामों से परिचय करवाया। क्षेत्रीय नगरीय कार्य प्रमुख जयभगवान ने वनवासी यात्राओं से संबंधित संस्मरण साझा किए। इस दौरान वनवासी कल्याण आश्रम के प्रदेशाध्यक्ष रामबाबू सिंगल व प्रदेश सचिव रामनिवास अग्रवाल सीए का सान्निध्य रहा। डॉ. अमित मेहता, डॉ. ललित मोहन बंसल, संदीप बूरा, वेदप्रकाश गोयल, नरेश कुमार पूनिया, सुनीता रहेजा, एडवोकेट

राजेश जैन व पुनोत मैनी विशिष्ट अतिथि रहे। वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष संजीव अरोड़ा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और वनवासी के जिला सूचना व जनसंपर्क प्रभारी राजेश चुध ने मंच का प्रभावशाली संचालन किया। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के जिला संरक्षक जगदीश बंसल, जिला उपाध्यक्ष मनीष बिंदल, जिला उपाध्यक्ष समीर सरदाना, जिला सचिव अजय सैनी, जिला कोषाध्यक्ष पर्व गुप्ता, सदस्य गौरव सिंगला, ईश्वर सैनी व पवन राड़ा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे। वनवासी छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गणेश वंदना करते हुए नृत्य प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। नागा जनजातीय नृत्य व त्रिपुरी जनजाति के नृत्य को

रहा है। तथा कथित साधु संत हिंदू राष्ट्रवाद का राग अलाप रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एजेंडा बनाकर देश को विभाजन की तरफ धकेला जा रहा है। यह अघोषित आपातकाल है और इस अघोषित आपातकाल का मुकाबला किया जाना चाहिए। क्योंकि जनता के जनतांत्रिक अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी और उनके खान पान पर जो हमला है यह अघोषित इमरजेंसी है इसलिए इसका विरोध जरूरी है। वर्तमान में महंगाई, भ्रष्टाचार अपराध व बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देकर जनतांत्रिक व

एनआईआईएलएम यूनिवर्सिटी में योग सेमिनार का किया आयोजन



तथा ऑयली भोजन का नियमित सेवन से दिल की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। योग की क्रियाओं से दिल को मजबूत बनाया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजलि श्योकंद ने बताया कि आयुर्वेद एवं योग को जीवन में अपनाने से जीवन को आरोग्य बनाया जा सकता है। यम,

भाजपा नेता ने जीएसटी प्रणाली में सुधार किए जाने की वकालत की : सुरेश गोयल

हिसार, 16 जून (मनमोहन शर्मा) : भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व पूर्व नगर निगम पार्षद सुरेश गोयल धूप वाला ने एक ब्यान में कहा की भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने एक देश, एक कर की अवधारणा को साकार किया है। उन्होंने कहा की हालांकि, इसके क्रियान्वयन के सात वर्षों बाद भी इसमें कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : डीसी नेहा सिंह ने कहा कि योग महाकुंभ जिला प्रशासन, आयुष कुरुक्षेत्र के 1000 उच्च रक्तचाप व मधुमेह रोगियों को 12 दिवसीय विशेष योग प्रशिक्षण तदर्थ योग के प्रभाव का आकलन योग समावेश के तहत किया जा रहा है। नशा पीड़ितों के लिए योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर कार्यालय के समय अधिकारियों व सभी कर्मचारियों के लिए 5 मिनट का योग ब्रेक निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों के लिए सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में योग प्रशिक्षण के शिविर चल रहे हैं।

योगा डे के लिए तीन तरह से करवा

निशुल्क संचालित किए जाते हैं। एक छात्रावास भिवानी में एवं दूसरा फरीदाबाद में स्थित है। इन छात्रावासों में विद्यार्थी शिक्षा व संस्कार ग्रहण करके वापस अपने–अपने प्रदेशों में चले जाते हैं। वहां वे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देते हुए समाज में उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का छात्रपालक बनकर हरियाणा के समाजसेवी मिसाल कायम कर रहे हैं। छात्रपालक बनकर, मंदिर निर्माण में सहयोग करके एवं वनवासी बंधुओं के लिए रोजमर्रा की सामग्री उपलब्ध करवाकर कोई भी ईसान सकता है।

चलाए जा रहे 22 हजार से अधिक सेवा प्रकल्प

देशभर में 12 करोड़ वनवासी हैं और उनकी उन्नति के लिए शिक्षा, चिकित्सा व ग्राम विकास जैसे 22 हजार से अधिक सेवा प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा देशभर में चलाए जा रहे हैं। इन प्रकल्पों से दो करोड़ वनवासी बंधु लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा के समाजसेवियों के सहयोग से हर वर्ष वस्त्र, राशन व अन्य सामग्री के कई

बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एवं खतरनाक : जरनैल सिंह

आपातकाल का भी मुकाबला किया जाना चाहिए और एक नागरिक के तौर पर हम सभी इस अघोषित आपातकाल से चिंतित हैं। इसलिए इस अघोषित आपातकाल का पर्दाफाश करने के लिए 25 जून को एक कन्वेंशन की जाएगी जिसमें नागरिकों के अधिकारों को बहाल करने की मांग की जाएगी। बैठक में जरनैल सिंह सांगवान के अलावा बलबीर सिंह एडवोकेट के स बंसल, राजेश बिंद्रा, जगमाल सिंह, राहुल भान राम वर्मा राम तीरथ यादव व अजमेर सिंह ने भी वर्तमान हालात और शहर की गंभीर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया।

थी कल्याणकारी राज्य के तौर पर वे सारी सेवाएं बंद की जा रही हैं। अपराधी बेकोफ हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की सेवायें आम जन से दूर होती जा रही हैं। और यहां तक की जो जो सेवाएं सरकार जनता को देती थी कल्याणकारी राज्य के तौर पर वे सारी सेवाएं बंद की जा रही हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों को निशाना बनाकर दबाया जा रहा है। यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है इसलिए इस अघोषित

थेरेपी से बात रोगों जैसे कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, पित्त रोगों आदि में बड़ा ही अच्छ प्रभाव देखने को मिलता है। पंचकर्म की अन्य थेरेपी शिरोधारा, वमन आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. शकुंतला दहि्या ने कहा कि योग एक प्राचीन अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देता है।

यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है, एकाग्रता में सुधार होता है, और रोग

लिए असुविधाजनक और कभी–कभी तर्कहीन प्रतीत होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दरों को केवल दो श्रेणियों–आवश्यक वस्तुएं और अन्य वस्तुएँ–में सीमित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से 28 प्रतिशत की विलासिता दर को भी यथासंभव कम करना समीचीन होगा। सुरेश गोयल ने कहा की इसके अतिरिक्त, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड में आ रही जटिलताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। व्यापारियों को अपनी

ब्रह्मसरोवर और मेला ग्रांडंड को 100 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक हजार नागरिकों को योग के लिए बिठया जाएगा। मेला ग्रांडंड में जिलाभर के स्कूलों की छठी कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी बिठाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों से करीब 37 हजार विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि अलग–अलग संस्थाओं ने करीब 40 हजार योग साधकों को लेकर आने की तैयारी क है। वहीं पर्वजलि योग पीठ की तरफ से हर गांव में योग शिविर लगाकर प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों के लिए टी–शर्ट, पानी की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट, सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाएगी।

ट्रक वनवासी बंधुओं की सहायतार्थ भेजे जाते हैं। इसके साथ ही सैकड़ों कंबल भी हर वर्ष वनवासी बंधुओं को उपलब्ध करवाए जाते हैं।विशेष बात यह है कि इस सेवा कार्य में हिसार सहित प्रदेशभर के विभिन्न क्षेत्रों से समाजसेवियों का दिल खोलकर सहयोग रहता है।

वनवासी बच्चों ने हिसार के परिवारों में किया रात्रि प्रवास

पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू–कश्मीर से हिसार आए वनवासी छात्रों ने गुजवि के चौ. रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में बेहतरीन प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम के समापन पर दो–दो छात्रों ने हिसार के विभिन्न परिवारों में प्रवास किया। ये वनवासी छात्र इन परिवारों में सदस्यों की भांति रहे और सुबह इन परिवारों के बच्चों के साथ प्रातःकालीन सैर की और नाश्ता किया। इतना ही नहीं वनवासी छात्रों व स्थानीय परिवारों के बच्चों ने एक–दूसरे की संस्कृति को समझा और अपने–अपने अनुभव साझा किए। रात्रि प्रवास के दौरान जिस अपनेपन व समरसता का संचार हुआ वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

विराट, रोहित की जगह लेने के लिए पर्याप्त प्रतिभाएं-पोटिंग

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग ने कहा कि कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ शुरु हो रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम को अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी महसूस होगी पर इनकी जगह लेने के लिए उसके पास पर्याप्त प्रतिभाएं हैं। पॉटिंग के अनुसार दिग्गज



बल्लेबाजों की जगह लेना हमेशा उनके पास अभी काफी युवा ही कठिन होता है पर भारतीय टीम प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने के पास पर्याप्त प्रतिभाएं हैं जो इस 10 साल तक आईपीएल में यह चुनौती को अच्छे से सामना कर देखा है। इससे निकले यशस्वी सकती हैं। भारत और इंग्लैंड के जायसवाल जैसे खिलाड़ी क्रिकेट बीच 20 जून से लीड्स में पहला में आते ही धूम मचा रहे हैं। भारत टेस्ट शुरु होगा। ये सीरीज अगस्त स्किल को आसानी से बदल सकता 2025 तक चलेगी और प्रशंसकों है हालांकि अनुभव की कमी रहेगी। व खिलाड़ियों के लिए इसमें एक शुभमन जैसे युवा कप्तान के साथ, भावनात्मक चुनौती भी रहेगी। पूर्व केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह कप्तान के अनुसार रोहित और जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास जिनका लाभ टीम को मिलेगा। लेने के बाद नये कप्तान शुभमन पॉटिंग ने कहा कि पुर्ननिर्माण के गिल की टीम को इंग्लैंड के कठिन दौर का सामना भारतीय टीम बेहतर हालातों में अपने को साबित तरीके से कर सकती है। रोहित और करना रहेगा। इस दोरे में ध्रुव विराट ने पिछले माह ही अचानक जुरेल, करुण नायर, अभिमन्यु टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ईस्वरन और साई सुदर्शन जैसे कर दी थी।

प्रतिभाशाली युवाओं के पास **क्रिकेट में बढ़ रहा क्लब कल्चर** अपने को साबित करने का जिस प्रकार ऑस्ट्रेलियाई अवसर है। पॉटिंग ने कहा कि इतने ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और लंबे समय तक खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन खिलाड़ियों की जगह लेना हमेशा ने टी20 लीग में खेलने अचानक ही मुश्किल रहा है पर इसमें अगर ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कोई टीम तेज से ऐसा कर सकती ले लिया है। उससे ये संकेत मिल है तो वह भारतीय टीम है, क्योंकि रहे हैं कि भविष्य में क्रिकेट में भी

क्लब कल्चर आयेगा। मैक्सवेल और क्लासेन से पहले भी कई अन्य खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही किया है। इसमें वेस्टइंडीज के सबसे अधिक खिलाड़ी हैं। इससे वेस्टइंडीज की टीम बेहद कमजोर हो गयी क्योंकि दिग्गज खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम की जगह लीग क्रिकेट को प्राथमिकता देने लगे। खिलाड़ियों इस बदलाव के पीछे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, वित्तीय लाभ, और खेल की बढ़ती व्यावसायिकता शामिल हैं। पहले वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ही देश के बजाए फ्रेंचाइजी क्रिकेट को अधिक वरीयरता दे रहे था पर अब इनमे कई और देशों के खिलाड़ी भी शामिल होने लगे हैं। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन सहित कई खिलाड़ियों ने केन्द्रीय अनुबंध देने से हंकार कर दिया है। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न देशों के 60 फीसदी सवे अधिक प्रमुख खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़कर

केवल घरेलू फ्रेंचाइजी लीगों में खेलने पर विचार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण लीगों में बेहतर वित्तीय अवसर और कम समय की प्रतिबद्धताएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की प्राथमिकता में कमी और लीगों की बढ़ती लोकप्रियता देखी जा रही है। जिस उम्र में खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं वो खेल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता रहा है। खिलाड़ियों का यह रुझान अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है जो खेल की संरचना में बदलाव का संकेत देता है कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने इसपर चिन्ता जतायी है, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है पर किसी भी देश के पास अपने स्टार खिलाड़ियों को रोकने के लिए कोई योजना नहीं है। खिलाड़ियों के केवल सेंट्रल अनुबंध देकर नहीं रोका जा सकता. मैक्सवेल और क्लासेन दोनों ने के संन्यास के कारण अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने करियर के इस मोड़ पर व्यक्तिगत और पेशेवर कारणों का हवाला दिया है। क्लासेन ने 33 वर्ष की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

लिया। उन्होंने पारिवारिक समय और बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को प्राथमिकता दी है हालांकि वह फ्रेंचाइजी लीगों में खेलते रहेंगे। इससे जो संकेत मिल रहे है कि उनको अगले कुछ सालों के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट के तमाम अनुबंध हैं। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया, ताकि वह 2026 टी20 विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर सकें और फ्रेंचाइजी लीगों में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। एविन लुईस वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय रहने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न लीगों में खेलते हुए अपनी पहचान बनाई है. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने 2021 में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया था पर वह आईपीएल खेल रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 2021 में रिटायरमेंट लिया वह भी लीग क्रिकेट में सक्रिया हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय रहे कम उम्र में जिस तरह से तमाम क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे है उससे एक संकेत तो साफ है कि फ्रंचाइज क्रिकेट का बाजार और उसकी चमक धमक खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के संकेत दे रही है।

आईपीएल में सबसे बेहतर कप्तान के तौर पर उभरे श्रेयस अय्यर

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में भले ही अपनी टीम को खिताब नहीं जिता पाये हों पर वह एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। श्रेयस ने जहां पिछले सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 10 साल बार खिताब जिताया था। वहीं इस बार पंजाब की कप्तानी करते हुए उसे 11 साल बाद फाइनल में पहुंचाने में वह सफल रहे। इस दौरान वह एक संयमित कप्तान के तौर पर उभरे हैं जो दबाव के बीच भी शांत बना रहता



है। उनकी कप्तानी में एक बार दिल्ली कैपिटल्स भी फाइनल में पहुंची थी। श्रेयस महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद आईपीएल के तीन फाइनल में पहुंचने वाले तीसरे कप्तान हैं। उनकी यह उपलब्धि बेहद ही खास है क्योंकि उन्होंने पिछले पांच सालों में तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी टीमों के साथ वह ऐसा करने में सफल रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के इस सत्र में 603 रन बनाये हैं। इस सब के बाद भी उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है जो हेरानी की बात है। आईपीएल के पिछले सत्र में केकेआर ने रिटेन नहीं किया था जिसके लिए अब वह जरूर पछता रही होगी। वहीं इससे पंजाब को खासा लाभ हुआ। वहीं पिछले सत्र में शीर्ष पांच टीमों में भी शामिल नहीं थी पर इस सत्र में दूसरे नंबर पर आई है। श्रेयस के आने से पंजाब किंग्स को एक अच्छा बल्लेबाज और जूनूनी कप्तान मिला। ऐसा कप्तान जो करियर के उतार-चढ़ाव के बीच भी स्थिर बना रहता हो। अय्यर की कप्तान में अपनी समझदारी के साथ करिश्माई महेंद्र सिंह धोनी जैसा संयम और विराट कोहली जैसा आक्रामक रवैया होने के साथ रोहित शर्मा जैसा बिंदसा व्यवहार भी है। आईपीएल के फाइनल में मिली हार के बाद भी अय्यर का मनोबल कम नहीं हुआ और उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए कहा, ‘अभी काम आधा बाकी है, हमें अगले साल जीतना है। वहीं इंग्लैंड के लिए टीम में उन्हें शामिल नहीं किये जाने से पंजाब किंग्स के कोच रिकी पॉटिंग हैरान हैं। उनका कहना है कि इस झटके को भी श्रेयस ने आसानी से संभाल लिया। साथ ही कहा कि उसमें में हर बार अच्छा प्रदर्शन करने की ललक रहती है। वह हर मैच को जीतना चाहता है

और एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में विकसित होना चाहता है। दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान का यह बयान काफी मान्ये रखता है। पॉटिंग ने यह बात सिर्फ अपने फ्रेंचाइजी कप्तान का समर्थन करने के लिए नहीं कही। इन दोनों के बीच काफी पुराना रिश्ता है। साल 2017 में जब गौतम गंभीर ने बीच सत्र में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तो पॉटिंग की सलाह पर ही अय्यर दिल्ली आईपीएल फ्रेंचाइजी के कप्तान बने। दिल्ली की फ्रेंचाइजी 2020 में आईपीएल फाइनल में पहुंची जो इस टीम की इस लीग की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोट के कारण ब्रेक लेने के बाद कैपिटल्स ने फैसला किया कि वे उन्हें टीम में बरकरार रख ऋषभ पंत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। पंत उस समय के उभरते सितारे थे और कप्तानी की महत्वाकांक्षा रखते थे।

आईसीसी के नियमों में फिर से बदलाव करने की तैयारी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पुरुष वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बदलाव की बात कही है। आईसीसी के अनुसार टेस्ट मैचों के लिए 17 जून, एकदिवसीय के लिए 2 जुलाई और टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिए 10 जुलाई से नियम बदलेंगे। इन बदलावों की सिफारिश आईसीसी क्रिकेट समिति ने की थी।

वहीं आईसीसी मुख्य कार्यकारी समिति ने ने भी बदलावों की अनुमति दी दी है। एकदिवसीय में गेंदों के के बारे में एक नया नियम और (सिर पर गेंद लगने पर) कन्कशन सव्सटीट्यूट के लिए एक नया नियम बनाया गया है अब तक एकदिवसीय में दोनों छोर से दो नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाता रहा है पर अब नए नियम के तहत 34वें ओवर के बाद गेंद बदली जाएगी। वहीं पारी की शुरुआत से लेकर 34वें ओवर के अंत तक दो गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों छोर से एक-एक। हालांकि 35वें ओवर से लेकर पारी के अंत तक, गेंदबाजी टीम द्वारा दो में से केवल एक गेंद का चयन किया जाएगा और दोनों छोर से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैच शुरु होने से पहले 25 ओवर या उससे कम का हो जाता है, तो शुरु से केवल एक नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच बेहतर संतुलन लाने के लिए ये यह बदलाव किये जा रहे हैं। इसके अलावा आईसीसी ने कन्कशन सव्सटीट्यूट नियम को भी संशोधित किया है ताकि इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके जिससे मैचों के दौरान किसी भी तरह का संशय न हो। अब से टीमों को खेल शुरू होने से पहले मैच रेफरी को पांच संभावित सव्सटीट्यूट खिलाड़ियों की सूची देनी होगी। इस सूची में प्रत्येक विशिष्ट भूमिका के लिए एक खिलाड़ी, एक बल्लेबाज, एक विकेटकीपर, एक तेज गेंदबाज, एक स्पिनर और एक ऑलराउंडर शामिल होना चाहिए। यह बदलाव हाल के मैचों में कुछ विवादों के बाद आया है। उदाहरण के लिए इस साल जनवरी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20आई मैच के दौरान बल्लेबाजी ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा को शामिल किया था। राणा ने तीन विकेट लिए जिससे इस तरह के प्रतिस्थापन की निष्पक्षता के बारे में सवाल उठ गये थे। ऐसे में नये नियम के तहत कि केवल समान विकल्प की अनुमति दी जाएगी।



ग्लेन मैक्सवेल =

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब वह अपना ध्यान टी20ई पर केंद्रित करेंगे, विश्व कप 2026 में होना है। मैक्सवेल ने अंतिम बार कदिवसीय अंतराष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात करें तो इस साल चैंपियंस ट्रॉफी खेला था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वह आईपीएल 2025 में उतरे लेकिन चोट के कारण कुछ ही मैचों के बाद बाहर हो गये थे।

2012 में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मैक्सवेल दो बार विश्वकप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान 149 एकदिवसीय मैचों में 4000 रन बनाए हैं। वहीं 79 विकेट लिए हैं। मैक्सवेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही समान रूप से प्रभावी रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 विश्व में में उन्होंने कठिन हालातों में दोहरा शतक लगाया था। मैक्सवेल ने



अपने संन्यास को लेकर मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली को भी पहले ही जानकारी दे दी थी। फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैक्सवेल ने कहा था कि वह 2027 एकदिवसीय विश्व कप तक नहीं खेल पाएंगे ऐसे में उनके लिए आगे खेलना बेकार है। मैक्सवेल ने कहा, मैंने उसी समय उनसे कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2027 एकदिवसीय विश्व कप में खेल सकूंगा। मैक्सवेल ने कहा कि अब समय आ गया है कि वह युवाओं को अवसर दे ताकि भविष्य के लिए टीम तैयार हो सके। साथ ही कहा कि अब मेरी जगह पर उन युवाओं के लिए योजना बनाई जाए जिन्हें

2027 विश्व कप के लिए स्थान मिलेगा। मैक्सवेल ने अपने करियर के दौरान 3990 रन, 4 शतक और 23 अर्धशतकों के साथ बनाए हैं। वहीं 201 रन उनका सबसे अधिक स्कोर है।

हेनरिक क्लासेन =

दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। क्लासेन ने कहा है कि अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। क्लासेन ने पहले ही टेस्ट प्रारूप से भी संन्यास ले लिया था। उन्होंने केवल चार टेस्ट मैच खेले

थे। क्लासेन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना अंतिम एकदिवसीय मैच इसी साल मार्च में खेला था। क्लासेन ने संन्यास की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट किया , यह मेरे लिए कठिन दिन है। मैं इसी दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के फैसला की घोषणा करता हूं। मुझे यह तय करने में काफी समय लगा कि भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा। यह सच में एक बहुत ही दुखी करने वाला फैसला था पर मैं इसी सही मानता हूं। पहले दिन से ही, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। यह वह सब कुछ था, जिसके लिए मैंने एक युवा लड़के

के रूप में काम किया था और जिसके बारे में सपना देखा था। देश की ओर से खेलना मेरे करियर का सबसे बड़ा सम्मान था और हमेशा रहेगा। क्लासेन ने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि यह फैसला मुझे ऐसा करने की अनुमति देगा। मैं हमेशा अपनी टीम का समर्थक रहूंगा। मैं करियर के दौरान मुझे और मेरे साथियों का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 33 साल के क्लासेन ने साल 2018 में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। क्लासेन ने 4 टेस्ट मुकाबलों में 104 रन बनाये जबकि 60 एकदिवसीय मुकाबलों में उन्होंने 4 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से 2,141 रन बनाये। इस खिलाड़ी ने 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 1,000 रन बनाए हैं। क्लासेन को मध्य क्रम के रूप में उनके आक्रामक छकों के लिए जाना जाता है। क्लासेन टी20 विश्व कप-2024 में उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीकी टीम के सदस्य भी थे।



हमने सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया-बुवामा

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने लॉर्ड्स में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत पर खुशी मनाने हुए कहा है कि हमारी टीम ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो हमपर संदेह करते थे। बावुमा के अनुसार कई लोगों ने उनकी टीम के फाइनल में पहुंचने पर सवाल उठाये थे। उनका कहना था कि टीम कमजोर विरोधियों को हराकर फाइनल तक पहुंची है। मजबूत और भावनात्मक संदेश भेजा जिन्होंने उनके शिखर मुकाबले के रास्ते पर सवाल उठाए थे। बावुमा ने कहा “ एक टीम के रूप में हमने अपने को फाइनल में पहुंचाया। माना जाता है कि हमने कमजोर टीमों को हराया। यह उनके लिए है जो हम पर संदेह करते हैं। सवाल उठाने वालों ने निचली रैंकिंग वाली टीमों के खिलाफ उनकी जीत की ओर संकेत किया था पर उनकी टीम ने जीत के साथ ही करारा जवाब दिया। अंतिम दिन 278 रनों का पीछा करते हुए और लाल गेंद के क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर एक ऑस्ट्रेलियाई जैसी टीम को हराया। एडेन मार्करम ने इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक लगाया। बावुमा ने अपने साथी बल्लेबाज मार्करम की तारीफ की और कहा उनकी पारी अविश्वसनीय थी। आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम चरित्र को देखते हैं और वह एडेन में है। हमारे लिए एक और बेहतरीन खिलाड़ी। कप्तान ने स्टार तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा की भी जमकर प्रशंसा की। जिन्होंने फाइनल से पहले आलोचनाओं के घेरे में आने के बाद दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करके मैच का रुख ही पलट दिया।

कमिस ने माना दक्षिण अफ्रीकी टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिस ने आईसीसी विश्व

टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीएस) का खिताब नहीं जीत पाने पर निराशा जताते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बेहतर खेला और इसलिए वह जीत की अधिकारी थी। दक्षिण अफ्रीकी ने इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम क्षणों में धैर्य बनाए बनाये रखा जिससे उसे पांच विकेट से जीत मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने एक समय मुकाबले पर बढ़त बनायी हुई थी पर दूसरी पारी में उसके बल्लेबाज और गेंदबाज विफल रहे। कमिस ने कहा “ चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। हमेशा कुछ चीजें होती हैं। हमारे पास पहली पारी में अच्छी बढ़त थी और हमने उन्हें दूसरी पारी मे आउट करने का प्रयास किया पर सफल नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया ने मैच की शुरुआत मजबूती से की, पहली पारी में 67 रन की अहम बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में उसकी बल्लेबाज विफल रही जिससे अफ्रीकी टीम को अवसर मिल गया। एडेन मार्करम की शानदार बल्लेबाजी से उसे जीत मिली कमिस ने कहा “ ऐसा लग रहा था कि विकेट सपाट हो गया है उसके बदलने की उम्मीद थी पर ऐसा नहीं हुआ। स्पिनर नाथन लियोन को कोई विकेट नहीं मिला। कमिस ने मार्करम की बल्लेबाजी की प्रशंसा की। साथ ही किा कि दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनने की अधिकारी थी।

ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी चक्र में अच्छा पर लॉर्ड्स में वह अपनी लय बनाये नहीं रख पाये। साथ ही कहा कि यह दो साल शानदार रहे हैं।



उन्होंने प्रतियोगिता में बने रहने और अवसरों का फायदा उठाने की दक्षिण अफ्रीका की क्षमता की प्रशंसा की।
तमिलनाडु प्रीमियर लीग में एक गेंद पर तीन बार रनआउट का मौका हाथ से निकला
यहां जारी तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपील) 2025 के एक मैच में एक अनूठा वाक्या सामने

रनआउट के अवसर खो दिये।
ऑस्ट्रेलियाई कोच मैकडॉनल्ड ने टीम में बदलाव के संकेत दिये
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूसीसी) फाइनल में अपनी टीम की हार पर निराशा जतायी है। कोच ने कहा कि अब नये डब्ल्यूसीसी चक्र में टीम बदलावों के साथ उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम लॉर्ड्स की दूसरी पारी में बल्लेबाजी में विफल रही थी। मार्नस लाबुशेन को उस्मान ख्वाजा के साथ पारी की शुरुआत के लिए भेजा गया था जिससे वापसी कर रहे कैमरून ग्रीन को तीसरे नंबर पर उतारा जा सके पर ये प्रयोग विफल रहा। लाबुशेन रन बनाने में असफल रहे। उनके अलावा ख्वाजा और ग्रीन भी अधिक देर नहीं टिक पाये।

मैकडॉनल्ड ने कहा, इस टेस्ट मैच से पहले पारी की शुरुआत को लेकर काफी बात हुई थी और मैं ओपनिंग संयोजन की जरूरत के बारे में बात कर रहा था। हमने वहां कुछ बदलाव किये पर अब समय आ गया है कि किसी को स्थायी तौर पर रखा जाये। हमको यह कहना होगा कि इस टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका बेहतर था। हमें उन सुधारों पर ध्यान देना होगा जो हमें करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सत्र में लाबुशेन का औसत सिर्फ 27.82 रहा है, और ऐसे में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में शायद ही जगह मिले। मैकडॉनल्ड ने जोर देकर कहा कि वह टीम के भविष्य का एक बड़ा हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, उस उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 45, 46 का औसत रखने वाला कोई भी खिलाड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऐसे पुराने खिलाड़ी हैं जो शुरुआत की तुलना में अंत के करीब हैं। हमारे पास कुछ युवा खिलाड़ी हैं जो आ रहे हैं।

आया। यहां डिंडीगुल ड्रैगन्स और मदुरै वेंथर्स के बीच मैच में एक ही गेंद पर तीन बार रन आउट का मौका निकल गया। इस दौरान यहां अंपायर और बल्लेबाज तक हंसने लगे। इसका एक विडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। इस मुकाबले में हालांकि डिंडीगुल ने मदुरै को नौ विकेट से हरा दिया। इस मैच में डिंडीगुल ड्रैगन्स के तेज गेंदबाज गणेशन पेरियास्वामी की वाइड यॉर्कर गेंद को गुरजपनीत सिंह ने कवर्स में मारा। डिंडीगुल के कप्तान रविचंद्रन अश्विन, जो कवर्स पर खड़े थे, ने गेंद को उठाया और नॉन-स्ट्राइकर एंड की तरफ फेंका पर पेरियास्वामी गेंद को नहीं पकड़ पाए। इससे मदुरै के बल्लेबाजों रन के लिए दौड़ पड़े। अश्विन के श्रो के बाद डीप स्क्वायर लेग फील्डर ने गेंद को पकड़ा और स्ट्राइकर एंड की ओर फेंका जिसे इस बार विकेटकीपर बाबा इंदिराजीत पकड़ नहीं पाये। उसके बाद एक और श्रो किया उसे भी पकड़ा नहीं जा सका। इस प्रकार डिंडीगुल ने एक ही गेंद पर तीन

ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं जल की गुणवत्ता बारे जागरूक किया गया

यमुनानगर, 16 जून (संजीव कुमार) : छछरीली ,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं वासो के सौजन्य से खंड छछरीली के ग्राम पंचायत लोपो में विशेष रूप से भीषण गर्मी को देखते हुए जल संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोपो में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुल्तान सिंह ने की। इस अवसर पर जिला सलाहकार रजनी गोयल एवं जूनियर इंजीनियर धर्मवीर राठी, केमिस्ट नीरज मेहता की अगुवाई में जल घर के डोजर का निरीक्षण किया गया जो सही पाया गया। जिला सलाहकार रजनी गोयल ने जल एवं सीवरेज समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं जल की गुणवत्ता बारे जागरूक किया गया। इस अवसर पर जूनियर

इंजीनियर धर्मवीर सिंह राठी, केमिस्ट नीरज मेहता लैब सहायक सुखर्विंदर सिंह, पंप ऑपरेटर सुलेमान, आंगनवाड़ी वर्कर प्रवीण कुमारी, आशा वर्कर रेखा रानी, हेलपर मीना कुमारी, ओम प्रकाश मास्टर जी, राजवीर, जसबीर, प्रिंस राठी,विकसित, सूर्योदय, रामधन, सुमेर, कामिल, संजीव, सतपाल, विजय एवं अनेकों ग्रामीण उपस्थित थे।गोयल ने जल एवं सीवरेज कमेटी के कार्यों के बारे अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और लगातार भूजल दोहन के कारण भू-जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है अतः पानी का इस्तेमाल दूध की तरह करें। अपनी भावी पीढ़ी के लिए जल बचाये और आवश्यकता के अनुसार ही जल का प्रयोग करें, खुले चल रहे नलों पर टूट्टी अवश्य



लगवाए, क्योंकि जल जीवन दाता है। पानी का सम्मान करें। डोर टू डोर जाकर भी नलों पर टूट्टी की स्थिति जांची गई। पानी के सैंपल भी लिए और मौके पर ही पानी में क्लोरीन चेक की गई। केमिस्ट नीरज मेहता द्वारा पानी के केमिकल जांच के लिए वॉटर सैंपल लिए गए जो कि लैब से चेक किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि कहीं भी पानी की पाइपलाइन नाली में ना पड़ी हो इसे तुरंत प्रभाव से नाली से बाहर निकाले, कहीं भी अस्वच्छ कनेक्शन न रहने दे, क्योंकि अस्वच्छ कनेक्शन से या लीकेज की वजह से पानी दूषित हो जाता है जिसे पीने से हम बीमार हो जाते हैं और दूषित जल की वजह से अनेकों

जलजनित बीमारियों उल्टी,दस्त, हैजा के शिकार हो जाते हैं। अतः कहीं भी अस्वच्छ कनेक्शन न होने दे इसे तुरंत प्रभाव से हटाए। इस अवसर पर उन्होंने पानी के ऑनलाइन बिल जमा करवाने एवं टोल फ्री नंबर 1800180 5678 के बारे भी जानकारी दी। इस अवसर पर जूनियर इंजीनियर धर्मवीर सिंह राठी ने कहा कि विभाग द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है जिन व्यक्तियों ने अपने बाड़े-सब्जियों में पीने के पानी के अवैध कनेक्शन लगाए हुए हैं वह तुरंत प्रभाव से बंद करवा दे, नहीं तो विभाग द्वारा अवैध कनेक्शन कटवा दिए जाएंगे। ग्रामीणों को जल संरक्षण के शपथ भी दिलवाई गई। सरपंच सुल्तान सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया।

स्वस्थ शरीर होना ही मनुष्य का परम सुख है : योगाचार्य शीशपाल आर्य

सफीदों, 16 जून (एस.के मित्तल) : भारत विकास परिषद सर्पदमन शाखा के तत्वावधान में नगर के आर्य समाज मंदिर प्रांगण में चल रहे योग शिविर में लोग बढ़-चढ़कर भाग लेकर योग के गुर सीख रहे हैं। शिविर में योगाचार्य शोशपाल आर्य लोगों को विभिन्न योगसन करवाकर उन्हे उसके फायदों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। रविवार के शिविर में योगाचार्य शीशपाल आर्य द्वारा लोगों को पंचक्रिया, प्राणायाम, कपालभाति, अलोम- विलोम, मुल बंद समेत अनेक आसनों को विस्तार से जानकारी दी गई। अपने संबोधन में योगाचार्य शीशपाल आर्य ने कहा कि पहला सुख, निरोगी काया है। इसका



मतलब है कि स्वस्थ शरीर होना सबसे महत्वपूर्ण सुख है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन के अन्य सुखों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वह जीवन में किसी भी अन्य सुख का आनंद नहीं ले सकता हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ मनुष्य ही अपना काम करने, अध्ययन

करने, यात्रा करने का आनंद प्राप्त कर सकता है। आयोजक संस्था के अध्यक्ष संजीव दीवान व सचिव योगेश दीवान ने बताया कि यह निःशुल्क योग शिविर हर सुबह साढ़े 5 से साढ़े 6 बजे तक लगाया जा रहा है। यह शिविर आगामी 21 जून तक लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस शिविर में शामिल होकर स्वास्थ्य लाभ कमाएं।

नगर पालिका में एनडीसी के भ्रष्टाचार को लेकर उपायुक्त के नाम का सौंपा ज्ञापन



शाहाबाद मारकंडा, 16 जून (रूबी) : नगर पालिका में एनडीसी के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जनसेवा मंच के संस्थापक प्रधान शुभम साहनी, शिवम कवातरा, जयनाथ पांडे, नरेश आहूजा, राजेंद्र सभरवाल, जय सलूजा, राघव दुआ,जागदीश पाल, रणजीत वर्मा शिकायत लेकर उपायुक्त के पास पहुंचे। उपायुक्त के

न मिलने के कारण ज्ञापन सीटीएम डा. रमन गुप्ता को सौंपा गया। जानकारी देते हुए शुभम साहनी ने बताया कि पिछले लंबे समय से नगर पालिका में एनडीसी व अन्य मामलों को लेकर जांच की मांग उठाई जा रही है, लेकिन नपा अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। साहनी ने बताया कि ज्ञापन में उपायुक्त महोदय को कुछ प्रॉपर्टी आईडी नंबर दिए गए

हैं ,जिनमें कुछ को पहले अप्रूव्ड किया गया और रजिस्ट्री होने के बाद अनअप्रूव्ड कर दिया गया। इसी तरह एक प्लॉट के दोनों तरफ के प्लॉट अप्रूव्ड हैं जबकि बीच के प्लॉट को अनअप्रूव्ड बताया जा रहा हैं। नगर में 30 से 50 वर्ष पहले बनी इमारतों से डेवलपमेंट चार्ज मांगे जा रहे हैं जबकि डेवलपमेंट चार्ज भरे बिना नक्शा पास नहीं होता है। साहनी ने कहा कि अधिकारी बेवजह जनता को परेशान कर रहे हैं। सभी ने उपायुक्त कुरुक्षेत्र से मांग की है कि ज्ञापन में लिखी गई प्रॉपर्टी आईडी की जांच करवाई जाए, जिससे एनडीसी के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर कर्खाई की जाए, ताकि शाहबाद की जनता को नपा अधिकारियों व कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से निजात मिल सके।

वृक्ष को वृक्ष नहीं अपने पुत्र के समान समझकर उनका संरक्षण करना चाहिए : सुरेश

चिडाव, 16 जून (प्रवीन कुमार) : गांव गुल्लरपुर में ग्राम पंचायत ने व्यामशाला में पौधारोपण किया। ग्राम सरपंच हिना देवी के नेतृत्व में समाजसेवी सुरेश कुमार ने पंचायत सदस्यों के साथ सैकड़ों पौधों का रोपन किया। समाजसेवी सुरेश कुमार ने कहा कि हमें पेड़ों को अपने पुत्रों के समान समझकर उनका संरक्षण करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र का पालन पौषण कर उसका संरक्षण करते है, उसी प्रकार हमें पौधारोपण कर अपने पुत्र की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए,तभी हम



है। उन्होंने कहा कि हमें पेड़ पौधों की कटाई कर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नही करनी चाहिए। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते है जिससे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। पेड़ों से हमें फल, छाया, आक्सीजन,

दवाईयां व इंधन सहित अन्य कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे से हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। इस मौके पर योग सहायक रीना रानी, विशाल, दलीप सिंह, रामप्यारी सहित अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों ने गांव में पौधें रोपित किए।

मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को लेकर मोहदीनपुर मंडल की बैठक आयोजित

करनाल, 16 जून (संदीप रोहिला) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मोहदीनपुर मंडल की बैठक सेक्टर-8 स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सचिन राणा ने की, जबकि संचालन मंडल संयोजक धीरज खरकाली ने किया। इस अवसर पर मंडल सह-संयोजक राहुल तोमर, महामंत्री राजेश लाटर व विक्रम पाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की जनकल्याणकारी उपलब्धियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि बीते एक दशक में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और



बैश्विक मंचों पर भारत की साख को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। बैटक के दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। इसमें बताया गया कि 19 से 21 जून तक बृथ स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि आयोजन होगा, 25 जून को काला दिवस के रूप में डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सुरक्षा और

29 जून को ‘मन की बात’ का सामूहिक श्रवण बृथ स्तर पर किया जाएगा, वहीं 5 जुलाई से 15 अगस्त तक पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियाँ चलाई जाएंगी। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि प्रत्येक कार्यकर्ता घर-घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगा, जिससे जनता सरकार की नीतियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सके।

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन माफी ढांडा ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनकी सभी समस्याओं को समय से पूरा किया जाएगा। परिषद में सफाई कर्मचारी महत्वपूर्ण कड़ी है। शहर की सफाई का पूरा जिम्मा सफाई कर्मचारियों के कंधों पर ही है। उन्होंने कहा कि जिला नगर आयुक्त महोदय व कार्यकारी अधिकारी के निर्देश अनुसार नगर परिषद थानेसर द्वारा जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके तहत शिव मंदिर में साफ सफाई का कार्य किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह भी सफाई के कार्य में नगर परिषद का साथ दें और अपने शहर को साफ स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन माफी ढांडा ने सोमवार को सरकार



के निर्देशानुसार चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सेक्टर-7 के शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। चेयरपर्सन माफी ढांडा ने कार्यक्रम में करीब 35 महिला व पुरुष सफाई कर्मचारियों को सफाई के कार्य में प्रयोग होने वाली किट वितरित की। नगर परिषद चेयरपर्सन माफी ढांडा ने कहा कि आज कर्मचारियों को मास्क, ग्लब्स व जैकेट दी गई है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जैसे वातावरण में काम

करते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य से संबंधित कई बीमारियों का होने का अंदेशा बना रहता है। इसलिए उनसे बचाव के लिए ग्लब्स होने जरूरी है। हाथों के द्वारा कई बार सफाई करते हुए कूड़ा कर्कट लग जाता है जोकि बीमारी का कारण बनता है। इसके अलावा सफाई करते हुए हर समय दुर्गंध से भी सामना करना पड़ता है इसलिए मास्क भी जरूरी है। नगर परिषद चेयरपर्सन माफी ढांडा ने कहा कि रोड पर कार्य करते हुए ट्रैफिक से बचने के लिए जैकेट

दी गई है। सफाई कर्मचारी इन जैकेट को अपने कपड़ों के ऊपर पहन कर सफाई का कार्य करेंगे, क्योंकि रोड पर वाहन चालकों को यह रिफ्लेक्शन जैकेट जैकेट दूर से ही नजर आ जाती है और वे भी सचेत हो जाते हैं। इससे हादसे की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाती है। सफाई का संदेश दूर तक पहुंचाना जरूरी सेक्टर 7 से पार्षद मोहनलाल अरोड़ा ने कहा कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है और योग दिवस भी बड़े स्तर पर कुरुक्षेत्र में ही मनाया जाएगा। ऐसे में सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि बाहर से काफी लोग आएंगे। यहां आकर उन्हें स्वच्छता का एहसास हुआ तो यह मैसेज दूसरे क्षेत्र में भी जाएगा। चेयरपर्सन को लोगों ने क्षेत्र की

समस्याओं से करवाया अवगत। चेयरपर्सन को लोगों ने क्षेत्र में आ रही परेशानियों से भी अवगत कराया, जिसमें उन्होंने बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठाया। इस पर चेयरपर्सन ने कहा कि बेसहारा पशुओं को अब पानीपत और हिसार शिफ्ट किया जा रहा है। इसका कार्य लगातार जारी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हमारा शहर कैटल फ्री हो जाएगा। इसके बाद लोगों ने उनका धन्यवाद किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि मलकीत ढांडा, पार्षद सतीश गर्ग, विनोद सिंगला, अरुनी गुप्ता, आईसी एक्सपर्ट वीरेंद्र कुमार भारद्वाज, फील्ड ऑफिसर अनूप सिंह, सुपरवाइजर राजेश कुमार, विशाल, सतबीर के अलावा सफाई कर्मचारी साहिल, अमित वीरेंद्र लक्ष्मी, सलोनी, सुमन, सुदेश, नीतू सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

अब सुरक्षा किट पहनकर सफाई करते नजर आएंगे सफाई कर्मी

यमुनानगर, 16 जून (दिनेश कुमार) : शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। निगम की ओर से जहां सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वही सफाई कर्मियों की सुरक्षा पर भी ध्यान है। सफाई कर्मचारी सुरक्षित व स्वस्थ रहे, इसके लिए निगमायुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर निगम के 50 सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट दी गई है। सीएसआई अनिल नैन, वार्ड 16 से पार्षद संदीप धीमान, आईडीसी एक्सपर्ट व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा सोमवार को कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित की

गई। इस किट में रिफ्लेक्टर जैकेट, दस्ताने, मास्क व अन्य सामान है। अब सफाई कर्मचारी सुरक्षा किट पहनकर सफाई करते नजर आएंगे। किट पहनकर रात के समय सफाई करते समय हादसों का भी खतरा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए कर्मियों को गंदगी उठाने के लिए हाथों में दस्ताने पहनने के लिए दिए गए है। वहीं, मास्क सांस की बीमारियों से बचने में मदद करेगा। नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देशों पर सोमवार को सीएसआई अनिल नैन ने विभिन्न वार्डों में कार्यरत सफाई कर्मियों को किट दी। सीएसआई अनिल नैन ने कहा कि हमारे सफाई मित्र अर्थात



सफाई कर्मी दिनभर गंदगी में काम करते है। गंदगी को हाथों से साफ करते है। रात के समय सड़कों की सफाई करते है। दिनभर धूल मिट्टी में काम करते है। इसलिए उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। रिफ्लेक्टर जैकेट से हादसे से उनकी सुरक्षा होगी। मास्क पहनकर सफाई करने से सांस के माध्यम से धूल व

गंदगी शरीर में प्रवेश नहीं होगी। इससे उन्हें सांस की बीमारियों से बचाया जाएगा। हाथों में दस्ताने पहनकर गंदगी उठाने से उनके हाथ सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कचरे में कांच, सुई व अन्य नुकीले व धारदार सामान होता है। बिना दस्तानों के यह कचरा उठाने पर उनके चोटिल होने का खतरा रहता है। दस्ताने पहनकर सफाई करने

योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1205 प्रतिभागियों ने लिया भाग : डॉ. सतपाल

करनाल, 16 जून (सोनी दुआ) : जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. सतपाल ने बताया कि आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा के निर्देशानुसार तथा उपायुक्त उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जिला स्तर पर बनाई गई नोडल अधिकारी मोनिका के दिशा निर्देशन में जिला करनाल में 11 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक मनाने व हरित योग अभियान तथा योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के तहत विभागीय निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष विभाग के योग विशेषज्ञ डॉ अमित पुंज ने बताया कि आयुष विभाग करनाल द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करीब 1205 प्रतिभागियों ने भाग



लिया। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग करनाल द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में योग कॉन्फ्रेंस व वर्कशॉप एवं जिला कारागार करनाल में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का कार्यक्रम आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल, प्रोफेसर डॉ शरत गुप्ता, डिप्टी डीन डॉ गौरव कंबोज,

एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अर्चना भारती, हेल्थ इंस्पेक्टर मनोज, डॉ मनोज मित्तल, अतुल जैन डॉ नितिन रोहिल्ला ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान डॉ अमित ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया एवं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है हमारा मस्तिष्क चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन के तल पर कार्य करता है और ध्यान के माध्यम से हम किस प्रकार अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचार व तनाव को दूर करके शांति और आनंद पा सकते हैं अंत में डॉ अमित ने बताया कि जिन खोजा तिन पाइया के माध्यम से बताया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता परमात्मा आपके भीतर निवास करता है और हमें ध्यान द्वारा उसको प्राप्त करना है यही योग का उद्देश्य है। इसी प्रकार द्वितीय कार्यक्रम जिला कारागार करनाल में जेल अधीक्षक जिला कारागार करनाल लखबीर सिंह बराड़ की अध्यक्षता में तथा डीएसपी चरण सिंह, डीएसपी शैलाक्षी भारद्वाज व डीएसपी विवेक सांगवान की देखरेख में जिला कारागार करनाल में 31 मई से 21 जून तक आयुष विभाग करनाल द्वारा विशेष योग शिविर लगाया जा रहा है। जिसके तहत सोमवार को 805 कैदियों ने भाग लिया जिसमें योग सहायक गीता दहिया द्वारा महिला कैदियों को तथा मुकेश कुमार द्वारा पुरुष कैदियों को अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का नियमित अभ्यास क़रवाया जा रहा है।

एवं वर्कशॉप का आयोजन ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। योग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डायरेक्टर डॉ महेंद्र गर्ग ने योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की फोटो के समक्ष दीप प्रज्वल कर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। इस दौरान जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल, प्रोफेसर डॉ शरत गुप्ता, डिप्टी डीन डॉ गौरव कंबोज,

जिला जेल में करवाया योग शिविर का आयोजन



कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस योग शिविर में बंदियों को योगा करवाया गया। उन्होंने कहा कि डीएलएसए द्वारा समय-समय पर ऐसे कैपों का आयोजन किया जाता है।

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर अग्रवाल सभा ने जताया शोक



रतिया, 16 जून (अमन सेठी) : अग्रवाल सभा रतिया की एक विशेष बैठक रविवार शाम को अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष प्रमोद बंसल ने की। इस बैठक में सर्वप्रथम बीते दिनों अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में जान गवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष प्रमोद बंसल ने कहा कि बीते दिनों अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा अत्यंत दुखदायी व बेहद हृदय विदारक घटना है। यह हादसा पूरे देश के लिए एक दुखद क्षण है। इस दुखदायी घटना पर अग्रवाल सभा गहरा शोक व्यक्त करती है। प्रभु हादसे में जान गवाने वाली दिवंगत आत्माओं को शांति दे व शोक संतप्त परिवारों को यह गहन दुख सहने की शक्ति दे। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के सचिव राजकुमार सिंगला, सचिव जनक राज गोयल, कैशियर प्रेमचंद बंसल, राजू करंडी, हरिकेश मंगला, अशोक गर्ग, संजय मोदी, नरेश बंसल भूरा, दिनेश गोयल व मिटू सिंगला साहित अग्रवाल सभा के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बरवाला बस स्टैंड पर बागेश्वर धाम प्रेमियों द्वारा लगाई मीठे पानी की छबील



बरवाला, 16 जून (प्रवीन कुमार) : बरवाला के मुख्य बस स्टैंड पर बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धाभाव से मीठे जल की छबील लगाई गई। तीखी गर्मी में यह सेवा राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए राहत का माध्यम बनी। इस पुण्य कार्य में मनु सिंगला, विशाल, समर, निखिल, अंकित सिंगला, अंशुमान सिंगला, अभिनव शर्मा, आकर्षण, साहिल गुप्ता, रजत सिंगला और चीमा ने मिलकर सहयोग किया। सभी ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और राहगीरों को ठंडे मीठे पानी की सेवा दी। बागेश्वर धाम सरकार के प्रति आस्था से प्रेरित होकर युवाओं द्वारा किया गया यह सेवा कार्य समाज में एक सकारात्मक संदेश छोड़ता है। आयोजन में सामाजिक समरसता और सेवा भावना की झलक साफ दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की अपील की।

जय श्रीश्याम मंडल ने सक्षम जिंदल व यशु बंसल को किया सम्मानित



हिसार, 16 जून (मनमोहन शर्मा) : पूरे भारत में जेईई परीक्षा में सक्षम जिंदल ने द्वितीय स्थान पाकर हरियाणा प्रदेश व हिसार वासियों का नाम रोशन किया है। ऐसे होनहार विलक्षण प्रतिभा के धनी सक्षम जिंदल को जयश्री श्याम मंडल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही यशु बंसल को आईआईटी में चयन होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल के प्रधान हुनेश्वर गोस्वामी, गोविंद असीजा, राजेश शर्मा, प्रवेश बंसल, अमित अग्रवाल, डॉ. उमेश जिंदल, सूरजभान बंसल आदि मौजूद रहे।

आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं : सुखबीर मान



असंध, 16 जून (दलसिह मान) : जिला जूडो एसोसिएशन करनाल द्वारा आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा में लड़कियों की जूडो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस जूडो प्रतियोगिता में 14 टीमों ने भाग लिया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा के प्रधान सुखबीर मान ने शिरकत की और खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। सुखबीर मान ने लड़कियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। आज लड़कियां खेल में मेडल प्राप्त कर अपने भारत देश का नाम देश और विदेश में रोशन कर रही हैं। आज हमारी लड़कियां देश की सीमाओं की रक्षा के लिए भी तत्पर रहती हैं। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में की गई विंदनीय घटना का बदला हमारी दो जांबाज शेरनी बेटियों ने उनके घर में घुसकर मार कर लिया है। आज खेली गई जूडो प्रतियोगिता में आर्य कन्या गुरुकुल मोर माजरा मुस्कान बुरा ने स्वर्ण पदक, दिल्ली की दीक्षा ने रजत पदक, अनन्या गुरुकुल मोर माजरा ने कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया है। इस मैच के दौरान कृष्णा मान सैक्टेरी जूडो संगठन करनाल ओम प्रकाश, दिलीप कुमार, नरेंद्र, बिजेन्द्र मान, जगत सिंह मान, बलवान शेरा, रितु कोच मौजूद रहे।

आर्य वीर दल शिविर में बच्चों को मिलते है सकारात्मक विचार और संस्कार : सोहन सिंह राणा

करनाल, 16 जून (रविन्द्र) : गांव घोघड़ीपुर में आर्य समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का रविवार को समापन हो गया। सात दिवसीय शिविर में बच्चों ने योगासन, प्राणायाम, जूडो कराटे, लाठी का प्रशिक्षण वैदिक मान्यताएं एवं चरित्र निर्माण के साथ-साथ देश भक्ति व माता पिता तथा समाज सेवा की शिक्षा ग्रहण कीं। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा ने मुख्यतिथि व जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बलवान सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आर्य समाज सभा की ओर से



अतिथियों का बुके देकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। बच्चों ने योगासन, लाठी, प्राणायाम, जूडो कराटे सहित विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि सोहन सिंह राणा ने कहा कि आर्य वीर दल बच्चों को जीवन मूल्यों, अनुशासन, नैतिकता और आत्म विकास से जुड़ी गतिविधियां सिखाकर एक सभ्य समाज का

सीवरेज का गंदा व बदबूदार पानी पाइप ब्लॉक होने की वजह से बैक मार रहा

यमुनानगर, 16 जून (संजीव कुमार) : वार्ड नंबर 10 की यमुना विहार कॉलोनी में सिवरेज की अव्यवस्था से हालात बद से बदतर हालत होने से यहां के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। कालोनी वासियों का कहना है कि हर तरफ गंदी बदबू फैली हुई है। सीवरेज के ढक्कन तक गायब हो गए है। यहां तक के कालोनी वासियों के घरों में भी सीवरेज का गंदा व बदबूदार पानी पाइप ब्लॉक होने की वजह से बैक मार रहा है, अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई लेकिन मानसून आने के पश्चात क्या हालत होने वाले हैं, इसकी कोई



समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि यहां तक कि निगम के जेई, एसडीओ के संज्ञान में भी यह मामला पहुंचा दिया गया था।

पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक और पॉलीथिन के प्रयोग करें बंद : सतेंद्र सिवाच

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार)

: जिला नगर आयुक सतेंद्र सिवाच ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक और पॉलीथिन के प्रयोग कर रोक लगाना बहुत जरूरी है। प्रदेश सहित जिला में स्वच्छता अभियान चला हुआ है। शहरी निकाय की टीम द्वारा शहर में सफाई अभियान पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने शहर वासियों को अपील की है कि वो अपने-अपने घर के आस-पास सफाई रखें। यदि हर नागरिक ऐसी शुरुआत होता है कि इससे स्वच्छता का स्तर काफी बढ़ जाएगा। स्वच्छता पखवाड़े के तहत सोमवार आज प्लास्टिक मुक्त शहर के थीम पर नगर परिषद थानेसर ने



छोटा बाजार और सब्जी मंडी में कपड़े के थैला का वितरण किया गया। हरियाणा सरकार स्वच्छ भारत मिशन कुरुक्षेत्र के सदस्य सुनील वर्मा और वाह फाउंडेशन के अध्यक्ष जसवीर के द्वारा किया गया। उन्होंने लोगों को प्लास्टिक, पॉलिथीन का

निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। योग से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। हमें योग का अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और अपने बच्चों को भी योग व प्राणायाम के लिए प्रेरित करें। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि आर्य वीर दल शिविरों में बच्चों को सकारात्मक विचार और संस्कार मिलते है। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहने

सीवरेज का गंदा व बदबूदार पानी पाइप ब्लॉक होने की वजह से बैक मार रहा



समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि यहां तक कि निगम के जेई, एसडीओ के संज्ञान में भी यह मामला पहुंचा दिया गया था।

लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया। यहां तक की कई बार इसकी शिकायत सीएम विंडो पर भी की गई। लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आखिर नवनिर्वाचित मेयर को 10 नंबर वार्ड आखिर क्यों नहीं नजर आया आ रहा। कालोनी वासियों का कहना है कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर बनारसी दास, विक्रम कुमार, मनोज कुमार, प्रीति, नीतू, नीलम, निधि, अमित कुमार आदि शामिल रहें।

एसडीएम ने ली एनकोर्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश



कैथल, 16 जून (प्रवेश बहादुर) : उप मंडल कार्यालय में नारको समन्वयक समिति (एनकोर्ड) की बैठक का आयोजन किया गया एसडीएम अजय हुड्डा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन का मिशन हर गांव को नशा मुक्त बनाना है। जिसकी लिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ काम करें। उन्होंने खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मेडिकल स्टोरों की समय समय पर चेकिंग करें। नगर पालिका सचिव को निर्देश दिए कि वे वार्ड सदस्यों को साथ लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और सभी वार्डों का नशा मुक्त बनाएं। इसके साथ साथ मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी ड्रेनों व नालों की सफाई सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आज : डीएसओ राज रानी

कैथल, 16 जून (प्रवेशबहादुर) : जिला खेल अधिकारी राज रानी ने बताया कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (पुरुष व महिला) 2024–25 का आयोजन 27 जून से 29 जून 2025 तक जिला पंचकूला में करवाया जा रहा है। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों का ट्रायल होगा, इसके बाद चयनित खिलाड़ी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों के ट्रायल 17 जून को सायं 4 बजे आरकेएसडी स्टेडियम में लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में स्थापित विभागीय प्रशिक्षक केन्द्रों, निजी प्रशिक्षण केन्द्रों, शिक्षण संस्थाओं तथा कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों द्वारा अपने जिले से संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे, जैसे जिला का रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट की कॉपी। यह प्रतियोगिता सीनियर स्तर की प्रतियोगिता है। जिला कैथल से निम्न भार वर्गों में राज्य स्तर पर कुल 20 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला (ट्रायल के आधार पर) व राज्य स्तर पर विभिन्न भार वर्गों में करवाया जाना है, जिसमें सीनियर (महिला) वजन 45 से 48 किलोग्राम, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 80 व 80 से अधिक किलोग्राम, सीनियर (पुरुष) वजन 47 से 50 किलोग्राम, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 तथा 90 से अधिक किलोग्राम शामिल होंगे।

जन समस्याओं का तय समय सीमा में किया जाए समाधान : डीसी प्रीति



कैथल, 16 जून (प्रवेश बहादुर) : हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार एवं डीसी प्रीति के मार्गदर्शन में लगाए जा रहे समाधान शिविर आमजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। यह शिविर मुख्यमंत्री की जन-सेवा, सम्पर्ण और समाधान की सोच को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। डीसी प्रीति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले लोगों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए।

इन शिविरों में नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से पीपीपी आईडी में इनकम में त्रुटि तथा मंबर जोड़ने से सम्बंधित, राशन कार्ड, पुलिस विभाग, बिजली विभाग, पानी, अवैध कब्जे आदि से सम्बंधित समस्याएं रखी जाती हैं। काफी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाता है, शेष को लेकर सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त हो रहा है।

उत्तर रेलवे नोटिस		
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अतिरिक्त मंडल अस्पताल, जगाधरी वर्कशॉप द्वारा आनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट (फिजीशियन–01, स्त्री रोग विशेषज्ञ–01) की अनुबन्ध के आधार नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो अतिरिक्त मंडल रेलवे अस्पताल, जगाधरी वर्कशॉप में आनरेरी विजिटिंग स्पेशलिस्ट के रूप में रेलवे के लामार्थियों को पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए और काम करने के इच्छुक हैं। आनरेरी विजिटिंग विशेषज्ञ की नियुक्ति:		
1. योग्यता: P.G डिग्री धारक विशेषज्ञ को डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। व P.G डिप्लोमा धारक विशेषज्ञ को डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।		
2. आयु प्रोफाइल –30 वर्ष से 64 वर्ष		
3. पारिश्रमिक—		
HVS Speciality	Working Hours/Period	Renumeration
HVS Physician	02 Hrs a day for 06 days/week	Rs:52000/- per month
HVS Obs& Gynae	02 Hrs a day for 06 days/week	Rs:52000/- per month
4. उम्मीदवार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अतिरिक्त मंडल अस्पताल, जगाधरी वर्कशॉप के कार्यालय से आवेदन फार्म और नियम & शर्त 11:00 बजे से 13:00 बजे के बीच, किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं। या यह हमारी वेबसाइट www.nr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।		
5. सील बंद आवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अतिरिक्त मंडल अस्पताल, जगाधरी वर्कशॉप के कार्यालय में अंतिम तिथि 02.07.2025 में 12:00 बजे तक ही जमा कर पाएंगे और सील किए गए आवेदन 02.07.2025 को 12:30 बजे खोले जाएंगे।		
कार्यालय अधीक्षक		
1781/2025 वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी/ जगाधरी वर्कशॉप		
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ		

आधार कार्ड के लिए निर्धारित किए गए स्थान पर किया जाए आधार से संबंधित कार्य : अभय जांगड़ा

सोनीपत, 16 जून (विनोद) : स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की जिला परिषद के सीईओ अभय जांगड़ा ने कहा कि आधार से संबंधित कार्य करने के लिए भारतीय दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआईडीएआई) द्वारा जिन विभागों को आधार बनाने व अपडेट करने से संबंधित कार्य के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई गई है वे विभाग व संस्थाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा जो स्थान निर्धारित किया गया है वहीं आधार से संबंधित कार्य होना चाहिए। अगर कोई इस कार्य को किसी अन्य स्थान पर करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीईओ जिला परिषद अभय जांगड़ा ने सोमवार को आयोजित जिला



सुनिश्चित करें। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में दस्तावेज अपडेट करने से संबंधित कार्य को भी तुरंत पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग अपने बच्चों का माई आधार ऐप पर चैक कर लें कि किस बच्चे का एमपीयू पेंडिंग है ताकि सभी बच्चों को आधार अपडेशन के लिए न बुलाना पड़े। सीईओ जिला परिषद ने कहा कि

https://

myaadhaar.uidai.gov.in/verifyyadhaar पोर्टल पर जाकर स्वयं भी आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपना आधार कार्ड निलशुल्क अपडेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से करवाया जा सकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधार अपडेट करवाने के लिए वे लोगों को जागरूक करें ताकि हर व्यक्ति अपना आधार अपडेट करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला के हर बच्चे व व्यक्ति को आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आधार का अपडेट होना बेहद

राजकीय आइटीआई में योग शिविर आयोजित
चिडवा, 16 जून (प्रवीन कुमार) : योग दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्सिंग में योग दिवस शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल जसविंदर सिंह संधू ने की। शिविर में योगासन के महत्व के बारे में छात्रों को अवगत कराते हुए स्वस्थ युवा, सक्षम भारत' संकल्प के तहत परशिक्षकों, स्टाफ सदस्य व अतिथियों ने मिलकर योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया। संधू ने अभ्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग मानव जीवन को संतुलित, शांत और सकारात्मक उर्जा देने के साथ–साथ शरीर को बलिष्ठ एवं स्वस्थ मन की प्राप्ति का रास्ता हैं। इस मौके पर योग प्रशिक्षक मुकेश शर्मा, कुसुम रानी व सोनू ने अभ्यार्थियों को ताड़सन भुजंगासन, वज्रासन, अनुलोम–विलोम सहित अन्य योगाभ्यास कराए। जिनक सभी प्रतिभागियों ने एकाग्रता पूर्वक अभ्यास किया। कार्यक्रम के दौरान योग से होने वाले फायदे, मानसिक एकाग्रता और तनावमुक्त जीवन पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अभ्यार्थियों को नशामुक्त जीवन जीने के लिये प्रेरित कर अभ्यार्थियों को निरंतर योगाभ्यास करते रहने के लिए सुझाव दिया। इस मौके पर वर्ग अनुदेशक शोशपाल, विनोद, पवन, सुभाष, नवीन सहित अन्य शामिल रहे।



हीमोफीलिया जागरूकता एवं सहायता शिविर का सफल आयोजन

कैथल, 16 जून(प्रवेश बहादुर)

: हीमोफीलिया जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने तथा पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाबी वेलफेयर सभा, कैथल के सभागार में एक दिवसीय जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर



हीमोफीलिया के करीब 30 मरीज हैं, जिनमें एक हीमोफीलिया क्रऔर दो इनहिबिटर पॉजिटिव रोगी शामिल हैं। शिविर के दौरान इंटास फाउंडेशन द्वारा मरीजों को जीवनरक्षक दवा फैक्टर 8 निशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस दवा की बाजार में कीमत

लगभग 24 लाख तक होती है, और यह आपातकालीन स्थितियों में मरीजों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इसके अलावा, शिविर में मरीजों का महंगा और विशेष इनहिबिटर टेस्ट भी नि:शुल्क किया गया। यह जांच यह पता लगाने में मदद करती है कि रोगी के शरीर में

ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं बन गई हैं जो फैक्टर 8 की प्रभावशीलता को निष्क्रिय कर देती हैं। यह परीक्षण आमतौर पर केवल PGI चंडीगढ़ में ही उपलब्ध है और समय पर उपचार सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. रमेश बंसल ने उपस्थित मरीजों को आवश्यक इंजेक्शन वितरित किए और दवा के सही उपयोग व सावधानियों की जानकारी दी। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए राकेश यादव ने सरल और प्रभावशाली व्यायामों का प्रशिक्षण भी दिया, जिसे मरीजों और उनके परिजनों ने काफी सराहा।

इस अवसर पर इंटास फाउंडेशन से दीपक, विनय और भव्या सहित स्थानीय स्वयंसेवकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर के सफल आयोजन के लिए राकेश यादव व उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। शिविर की सफलता ने यह सिद्ध किया कि यदि संगठित प्रयास किए जाएं तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत और उम्मीद दी जा सकती है। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे शिविरों का आयोजन जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया, ताकि हीमोफीलिया से पीड़ित हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके।

एमडीएम वर्कर्स 26 हजार न्यूनतम मानदेय को लेकर 20 जून को देंगी ज़ापन : शरबती

यमुनानगर, 16 जून (संजीव कुमार) : मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा (रजि.1933) के सम्र्बधित सीटू, एमडीएम डब्ल्यूएफआई व सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक संघ कार्यालय दशहरा ग्राउंड में सम्पन्न हुई।इसकी अध्यक्षता जिला सचिव नालम भट्टी व संचालन जिला सचिव कविता ने की।बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सबसे पहले अहमदाबाद में विमान दुर्घटना व केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए यात्रियों की याद में दो



लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में उपस्थित सीटू जिला सचिव शरबती ने अपने संबोधन में बताया कि बकाया व कटा हुआ मानदेय

तुरंत जारी हो, स्कूल मर्ज व बंद न हो और इसके चलते या बच्चे कम होने की स्थिति में वर्करों को काम से न हटाया जाए, हटाई गई वर्करों

को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाए, रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलें या उम्र 65 साल हो, बेगार बंद हो, वर्दी भत्ता 2000 रुपए हो आदि माँगो को लेकर जिला की सभी एमडीएम वर्कर्स 9 जुलाई को एक दिन की राष्ट्रीय हड़ताल में खाना बनाने का काम बंद करके अन्य जनसंगठनों के साथ शहर में रोष मार्च निकाला जाएगा। इस मौके पर सीटू नेता विनोद त्यागी, रोशन लाल, एसकेएस जिला सचिव गुलशन भारद्वाज, प्रकाश कौर, पूजा व उषा आदि ने भी संबोधित किया।

पहुंचाकर हल करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि 11 साल में कांग्रेस संगठन नहीं बना सकी, जबकि हमने तीन बार सरकार बनाई। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिले प्यार और आशीर्वाद की सराहना की। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला पंचकुला प्रभारी प्रमोद कौशिक, हरिराम दीक्षित, सियाराम शास्त्री, सोनू शर्मा, राधेश्याम शर्मा, कालवा के सरपंच शैलेंद्र, रोहताश, परशराम वत्स, सतबीर अत्री, देवेंद्र शर्मा, रामफल शर्मा, सुभाष गौड़, सुरेंद्र वत्स, लख्मीचंद, नारायण दत्त सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

डीएलएसए ने दिव्यांग बच्चों के लिए गलाया जागरुकता अभियान

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए उनको उनके अधिकार के विषय में जागरूकता अभियान चलाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए द्वारा एक टीम गठित की गई है। इस गठित टीम द्वारा गांव पिंडारसी में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। उन्हे डीएलएसए द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही नालसा स्कीमस की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया।

भगवान परशुराम की तरह सेना ने किया पापियों का नाश : कार्तिकेय शर्मा

सफीदों, 16 जून (एस.के मित्तल) : शहीदों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का मूल हिस्सा है और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता हमारा कर्तव्य है। यह बात राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कालवा गांव के ययाति तीर्थ पर शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सांसद निधि से गौशाला के लिए कमरा निर्माण की घोषणा भी की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शहीद देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करते हैं। ऐसे में हमें उनकी शहादत को याद रखना चाहिए। सरकार अपना काम करती है,



लेकिन सामाजिक व्यक्ति के नाते हमारा भी दायित्व है कि हम शहीदों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशील रहें। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना की और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सांसद ने कहा कि जिस तरह भगवान परशुराम अधर्मियों का

नाश किया, वैसे ही हमारी सेना ने पापियों को सबक सिखाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा, ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के, बल्कि आँख में आँख डाल के जवाब देंगे। कार्तिकेय शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालें ताकि

उनका सम्मान बना रहे। उन्होंने कहा कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने धर्मशालाओं में यूपीएससी और एचसीएस की कोचिंग शुरू करने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अगले दो माह में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तबके की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते पर चलने और उनका आदर करने की अपील की। साथ ही, छह गांवों की समस्याओं को सरकार तक

बरसाती मौसम से पहले शहर के सभी नाले–नालियों को साफ करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी : राजेश कुमार

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि शहर के नाले नालियों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके लिए जहां टेंडर के माध्यम से भी टीम लगाकर सफाई की जारी है। वहीं नगर परिषद की भी एक 12 सदस्य टीम है, जो शहर की छोटी नालियों की साफ सफाई लगातार कर रही है। कार्यकारी अधिकारी ने सोमवार को गांव बाहरी स्थित नगर परिषद द्वारा



इसके बाद वह आगे जाता है। इसके अलावा जहां–जहां भी साफ सफाई की दिक्रत थी वहां जेसीबी व अन्य उपकरण से सफाई करवाई गई। इसके बाद नाले में से निकली शीलट को जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर ट्राली में लोड करवाकर उठाया गया। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि अक्सर गोबर व पॉलीथिन प्लास्टिक के कारण नालियां जाम हो जाती है और पानी ओवरफ्लो हो जाता है इसके बाद वह सड़क पर फैल जाता है। ऐसे में नाले नालियों की सफाई करवाना बहुत जरूरी है। वहीं आगामी बरसाती सीजन को देखते हुए डीसी नेहा सिंह व जिला नगर आयुक्त सतेंद्र सिवाच के आदेश अनुसार नाले नालियों की सफाई की लगातार

अधिकारियों द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने खासकर डेयरी संचालकों से अपील की कि वह डेयरी का गोबर नाले नालियों में न डेहरा और लोग भी कूड़ा करकट नाले नालियों में डालकर नगर परिषद के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठान कार्य करने में लगे टिपरो में ही डालें। उन्होंने कहा कि जो डेयरी संचालक गोबर को नालियों में बहाते मिला तो उनके पहले भी चालान किए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ एमई मंगूराम, सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार, वैभव कुमार व राकेश कुमार के साथ सफाई कर्मचारी की टीम मौजूद थी।

सर्वजनों को सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए उनको उनके अधिकार के विषय में जागरूकता अभियान चलाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि डीएलएसए द्वारा एक टीम गठित की गई है। इस गठित टीम द्वारा गांव पिंडारसी में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। उन्हे डीएलएसए द्वारा दिव्यांग जनों के लिए चलाई जा रही नालसा स्कीमस की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया।

कुरुक्षेत्र, 16 जून (सुदेश कुमार) : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि पीएलवी तनुज ने गांव खिड़की विरान में आमजन को संगठित और अंसंगठित

सेवाएं) योजना 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2016, पोष एक्ट, पोक्सो एक्ट, विक्रिम के केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, व डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें पंपलेटस बांटे गए। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता लाना है।

मजदूरों के अधिकारों, नालसा (असंगठित मजदूरों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2016, पोष एक्ट, पोक्सो एक्ट, विक्रिम के केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, व डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें पंपलेटस बांटे गए। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता लाना है।

डीएलएसए द्वारा गांव खिड़की विरान में किया गया जागरुकता शिविर का आयोजन



मजदूरों के अधिकारों, नालसा (असंगठित मजदूरों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2015, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं) योजना 2016, पोष एक्ट, पोक्सो एक्ट, विक्रिम के केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, व डीएलएसए द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें पंपलेटस बांटे गए। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता लाना है।

शिवा होम्स के निवासियों ने तंग परेशान करने का आरोप लगाया

जीरकपुर 16 जून (कबोज) जीरकपुर के सिंहपुरा क्षेत्र में स्थित सोसाइटी शिवा होम्स के निवासियों ने पुरानी आर.डब्ल्यू.ए की टीम पर 3 महीनो से पैसों का हिसाब ना देने और वहां के निवासियों को तंग परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके संबंध में जानकारी देते हुए वहां के निवासियों ने बताया कि 3



महीने पहले पुरानी आर.डब्ल्यू.ए की टीम जसदीप सिंह, राजेंद्र यादव, ऋषभ गुप्ता और सौरभ शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था और तब से लेकर अभी तक हम उनसे पैसों का हिसाब मांग रहे हैं, जिसे कि वह देने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक सिक्वोरिटी का जीना मुश्किल करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कंस्टेंट थाने में भी दे चुके हैं और इन्हे लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। तनखाह इन्होंने नहीं दी है जिससे की वह लोग भी परेशान है। निवासियों खिलाफ कार्रवाई करें। मामले में संपर्क करने पर पुरानी आर डब्ल्यू ए के का यह भी कहना है कि उनके द्वारा मेंबर राजेंद्र यादव ने कहा हमने सारा हिसाब दे दिया है और बाकी जो नया सोसाइटी के पैसों का गलत इस्तेमाल

किया गया है और उसे अपने निजी काम में लिया गया है जिसकी अनुमति हमने नहीं दी थी, इनके द्वारा खुद भी कोई मेटेंसेंस नहीं दी जाती जो कि सोसाइटी को चलाने के लिए जरूरी होती है और हर एक सोसाइटी वासी उसे भरता है। आर.डब्ल्यू.ए की जिम्मेदारी होती है कि वह सोसाइटी को सही ढंग से चलने में मदद करें और लोगों द्वारा दी गई मेटेंसेंस को पूरी जिम्मेदारी के साथ संचाल के रखें और उस पैसे का दुरुपयोग ना करें लेकिन पुरानी आर.डब्ल्यू.ए की टीम ने आम लोगों के पैसे को लूट लिया है और अब वह हिसाब देने के मामले में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। निवासियों ने यह आरोप भी लगाया है की पुरानी आर.डब्ल्यू.ए टीम के लोग औरतों को भी परेशान करते हैं और अपनी राजनीती से सारे वासियो का जीना मुश्किल करके रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कंस्टेंट थाने में भी दे चुके हैं और इन्हे लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है। सभी लोगों ने अपील की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। मामले में संपर्क करने पर पुरानी आर डब्ल्यू ए के मेंबर राजेंद्र यादव ने कहा हमने सारा हिसाब दे दिया है और बाकी जो नया प्रधान बनेगा उसके नाम बकाया रकम का डी डी बनवा दिया जाएगा

काका कंबोज ने अहमदाबाद पहुंचकर विजय रुपाणी के परिजनों से संवेदना जतायी

भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश कटारिया भी रहे मौजूद

फाजिल्का, 16 जून (बख्शी सिंह/जसप्रीत सिंह) भारतीय जनता पार्टी जिला फाजिल्का के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह काका कंबोज ने विमान दुर्घटना में पंजाब भाजपा के प्रभारी एवं वरिष्ठ नेता विजय रुपाणी के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वे विशेष रूप से अहमदाबाद स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि रुपाणी से मिलकर शोक संवेदनाएं प्रकट कीं।



इस अवसर पर फाजिल्का भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश कटारिया भी उनके साथ मौजूद रहे। काका कंबोज ने कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक है और इसने न केवल रुपाणी परिवार को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को गहरे शोक में डुबो दिया है। विशेषकर पंजाब और गुजरात के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि विजय रुपाणी जी सरल स्वभाव के धनी थे और वे पार्टी के साथ ज़मीनी स्तर तक जुड़े हुए थे। उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा एक प्रकाश स्तंभ की तरह रहेगा। काका कंबोज ने यह भी कहा कि उनके विजय रुपाणी जी से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और वे उनके जीवन में सदैव एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। उनके साथ हुई चर्चाएँ और मुलाकातें हमेशा उनकी स्मृतियों में जीवित रहेंगी।

संक्षिप्त समाचार

जालंधर के ये इलाके पुलिस छावनी में तब्दील, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

जालंधर 16 जून (निस) डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव, आई.पी.एस. के निर्देशों अनुसार नशों को जड़ से खत्म करने के लिए चल रहे युद्ध नशे विरुद्ध के तहत कमिश्नरेंट पुलिस जालंधर-ए.डी.जी.पी. मानवाधिकार पंजाब, डॉ. नरेश कुमार अरोड़ा की अगुवाई, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के साथ शहर में अलग-अलग स्थानों पर एक विशेष कासो आप्रेशन चलाया गया। सी.पी. जालंधर ने कहा कि पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉट-धानकिया मोहल्ला, बाबा दीप सिंह नगर, पिंड रेरू, बस्ती शेख, आबादपुरा, धीना, अली मोहल्ला और बस्ती गुजा में एक लक्षित कासो आप्रेशन चलाया गया। इस कार्रवाई में 220 से अधिक पुलिस कर्मियों जिनके साथ 10 जी.ओ. रैंक के अधिकारियों और संबंधित एस.एच.ओ. शामिल थे। पुलिस टीमों ने कथित तौर पर ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के घरों और संदिग्ध ठिकानों पर आपसी तालमेल के साथ छापेमारी की।

नशीली दवाओं की गतिविधियों का पता लगाने के लिए घरों और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी ली गई। नशीली दवाओं के तस्करी और इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई। इस अभियान को मजबूत करने के लिए रणनीतिक नाकेबंदी की गई ताकि संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा सके। कमिश्नरेंट पुलिस जालंधर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी नशे से संबंधित गतिविधि की सूचना नशा विरोधी हेल्पलाइन 9779100200 पर दें, साथ ही आश्वासन दिया कि साझा की गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

जालंधर वासियों की अब खैर नहीं! शुरु होने जा रहा नया सिस्टम, अब की ये गलती तो...

जालंधर 16 जून (निस) शहर में जगह-जगह फैले कुड़े और गंदगी से परेशान नगर निगम अब सख्ती के मूड में है। नगर निगम के मेयर वनीत धीर और कमिश्नर गौतम जैन ने ऐलान किया है कि अब जो भी व्यक्ति या संस्था कूड़ा इधर-उधर या सीधे डंप साइट पर फेंकते पाए जाएंगे, उनका तत्काल चालान काटा जाएगा। गौरतलब है कि 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूलज को जालंधर में अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कई बार अभियान चलाए गए लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। इस कारण शहर में गंदगी और कुड़े की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

मेयर और कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि जिन परिसरों (जैसे होटल, संस्थान, बड़ी दुकानें या सोसायटी) से रोजाना 50 किलो या उससे अधिक कूड़ा निकलता है, उन्हें स्वयं अपने कुड़े का प्रबंधन करना होगा। अन्य आम घरों और छोटी दुकानों को अपना कूड़ा नगर निगम द्वारा नियुक्त रैग पिकर्स के माध्यम से ही देना होगा। निगम प्रशासन ने जानकारी दी है कि मौके पर ही चालान काटने वाली मशीन मंगवा ली गई है, जिससे अब मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस सिस्टम को नगर निगम द्वारा जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

इन्ट्रप्रीत कौर ददी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक भारत देश हमारा ने जेएसडी पब्लिकेशन्स प्रा. लिमि. पटियाला के लिए मोर्चाफ़्रीड्स, एससीओ 3-4, चौक दुखनिवाण साहिब , सर्हिंद रोड पटियाला के कोपर जगजीत सिंह से छपवाकर कार्यालय भारत देश हमारा गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल बिल्डिंग, पुरानी प्रेस रोड , पटियाला से प्रकाशित किया।

PRGI (RNI) Regd. No.42376/1985

कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील

चंडीगढ़, 16 जून (निस) देशभर में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर अब पंजाब की आप सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें खासतौर पर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्यकर्मियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर किए जाए, ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। इसके अलावा लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की। वहीं अगर किसी को खांसी या बुखार जैसी शिकायत हो तो वह खुद को आइसोलेशन में रहकर इलाज कराए और दूसरों से संपर्क से बचे। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सतर्कता बताने के निर्देश दिए हैं और मास्क व सैनिटाइजर

का इस्तेमाल करने को कहा है, साथ ही लोगों को खांसते या छँकते समय मुंह ढकने, हाथों को बार-बार धोने और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने की हिदायत दी है। मान सरकार ने अभी किसी प्रकार की पाबंदी या लॉकडाउन जैसे उपाय नहीं अपनाए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं, लेकिन एहतियात ही बचाव है। इसलिए आमजन से सहयोग की अपील की जा रही है। देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक अब देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 7400 पहुंच गए हैं। देश में कुल एक्टिव केस 7400 हैं। इसके अलावा देश के राज्यों सबसे ज्यादा एक्टिव केस गुजरात में हैं, यहां आंकड़ा 1437 है।

ढाई मरले के प्लॉट को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, चलें ईंट-पत्थर, पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर केस दर्ज

जलालाबाद 16 जून (निस) स्थानीय मनेवाला रोड पर भाई मतीदास कॉलोनी के पास ढाई मरले के खाली प्लॉट पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों की महिलाओं में पहले विवाद हुआ और उसके बाद दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे। इस घटना में दो लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से एक का इलाज जलालाबाद के सरकारी अस्पताल में और दूसरी महिला का इलाज बटिंडा में चल रहा है। पहले पक्ष की महिला स्वर्ण कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन उसके नाम पर है। उसके पति का देहांत हो चुका है और इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके पड़ोसी इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। प्लॉट से संबंधित उसके पास सभी दस्तावेज हैं, जिन्हें वह पहले ही पुलिस प्रशासन को दिखा चुकी है। स्वर्ण कौर ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष की महिलाओं ने उसे जान से मारने की नीयत से सड़क पर पीटा और उसके कानों से टॉप्स भी उतार लिए। अब उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं पीड़ित दीपक सिंह ने कहा कि कुल साढ़े पाँच मरले प्लॉट की रजिस्ट्री उनके नाम पर है, जिसका इंतकाल भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब वह अपने ढाई मरले वाले हिस्से पर निर्माण करवा रहे थे तो जोगिंदर सिंह और सुरजीत सिंह ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और उनके बनाए गए प्लॉट की दीवार तोड़ दी। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को दी गई शिकायत में प्लॉट की निशानदेही की भी मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की।

पंजाब के इस जिले में लग गई सख्त पाबंदी, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

गुरदासपुर 16 जून (निस) जिले में हैजा व अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थों की स्वच्छता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने बिना तार की जाली या कांच के कवर के किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी है। अधिक पके, कच्चे या सड़े-गले व कटे फलों की बिक्री या प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा बिना तार की जाली के कवर के मिठाई, मीट, केक, बिस्कुट, ब्रेड, भुने अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंधात्मक आदेशों में उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार के जीवाणु विज्ञानी द्वारा मानव उपभोग के लिए अयोग्य

घोषित किए गए पानी आधारित उत्पादों, बर्फ, बर्फ के गोले, बर्फ मिश्रित उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है। ऐसे गन्ने का रस, लस्सी, शरबत आदि की बिक्री और प्रर्दर्शन पर रोक है जब तक कि यह स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार न किया गया हो। इसके अलावा बर्फ, मिनरल वाटर और गैस युक्त बोतलबंद पानी बनाने वाली ऐसी कोई भी फैक्टरी तब तक बंद रहेगी जब तक उसके पानी का सैंपल पंजाब सरकार की पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी/चंडीगढ़ बैक्टीरियोलॉजिस्ट से प्रमाणित न हो जाए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन गुरदासपुर, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सहायक सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी,

सहायक मलेरिया अधिकारी, सभी सीनियर वेटरनरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सुपरवाइजर, सभी एसएमआई, सभी एसएमओ, पेट्रू खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सरकार के सभी मेडिकल अधिकारी और उनके अधिकार क्षेत्र में सभी निकायों और संस्थानों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे बाजारों, इमारतों, दुकानों या स्थानों का निरीक्षण करें जो ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल चेक-अप पोस्टों पर तैनात सभी मेडिकल अफसरों को वाहनों को रोकने और संदिग्ध या संक्रमित यात्रियों की जांच करने का अधिकार है।

आशु ही करवा सकते हैं डंडे के जोर पर काम, इसलिए जिताना जरूरी-अल्का लांबा

लुधियाना 16 जून (निस) हल्का वेस्ट में कांग्रेस कैंडिडेट भारत भूषण आशु के पक्ष में प्रचार करने पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने %आप% सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल को सता का लालची बताते हुए कहा कि उसे पंजाब से कोई प्यार नहीं। अगर किसी से लगाव व प्यार है तो पंजाब की जैड प्लस सिक्वोरिटी, कारों के काफिले व जहाज में बूटे लेने से लगाव है। इस अवसर पर उनके साथ अमेठी के सांसद किशोरी लाल, कांग्रेस के इंचार्ज सचिव रविन्द्र, विधायक राणा गुर्जोत सिंह व पंजाब महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुरदासपुर कौर रंधावा भी उपस्थित थे। 2015 से 2020 तक आप

की विधायक रही लांबा ने केजरीवाल को आपदा बताते हुए कहा कि दिल्ली वालियां ने इसनु धूबा दिता, हरियाणा वालियां ने वड़न नहीं दिता, ते पंजाब आ वड़िया के जरीवाल आपदा। विधानसभा पश्चिमी के उपचुनाव में संजीव अरोड़ा को चुनाव लड़ाना तो बहाना है। असलियत केजरीवाल ने इस सीट को आड़ में राज्यसभा में जाना है। दिल्ली की हार तो मात्र ट्रेनर है, पंजाब में हार की पूरी फिक्म अभी बाकी है। उन्होंने विधानसभा पश्चिमी के वोटरों से आह्वान किया कि वह आशू के पक्ष में मतदान करके केजरीवाल पक्ष से बाहर कर दें। %आप% सरकार के नशा मुक्त पंजाब के बड़े-बड़े विज्ञापनों की

खिल्ली उड़ते हुए कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आम आदमी पार्टी के शासन काल में 272 पंजाबी नशे का सेवन कर मौत के आगोश में जा चुके हैं। 25 लाख युवा नशे की गर्त में हैं। पंजाब का कर्ज बढ़कर 3 वर्ष में 2.83 लाख करोड़ से 4.17 लाख करोड़ पहुंच गया है। सरकार का बढ़ा कर्ज केजरीवाल, सिमौदिया,सत्येन्द्र जैन को वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के चलते बढ़ रहा है। आप के मंत्रियों व विधायकों को भ्रष्टाचार के मामलों में फंसेने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हिस्सा न देने वालों पर ही कार्रवाई होती है।

भयंकर गर्मी में घर से बाहर निकलने वाले लोग कैसे करें बचाव! जान लें कुछ आसान टिप्स

बरनाला 16 जून (निस) स्वास्थ्य विभाग ने बहुत तापमान को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। अधिक तापमान से शरीर का तापमान नियंत्रण तंत्र बाधित होता है और गर्मी से होने वाली कई बीमारियों का खतरा रहता है। यह बात सिविल सर्जन बरनाला डॉ. बलजीत सिंह ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी करते हुए कही। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर सलाह के अनुसार इलाज करवाना चाहिए। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. मुनीश कुमार ने कहा कि अधिक तापमान के कारण

फूड पॉइजनिंग की समस्या बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें इस मौसम में अधिक से अधिक ताजे फल खाने चाहिए, बाजार का खुला खाना, तली हुई चीजें, मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए और तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे फल और सब्जियों को आहार में शामिल करना चाहिए, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है जैसे खीरा, तरबूज, आम, लीची और लौकी। इन सभी चीजों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर में पानी की कमी नहीं होती। जिला मास मीडिया एवं

सूचना अधिकारी कुलदीप सिंह मान व जिला बी.सी.सी. कोऑर्डिनेटर हरजीत सिंह ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण नवजात, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग, मजदूर, मोटे लोग व पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अधिक खतरा है। उन्होंने बताया कि घर से बाहर काम सुबह व शाम जैसे ठंडे समय में करना चाहिए। प्यास न लगने पर भी हर आधे घंटे बाद पानी पीते रहें। बाहर काम करते समय हल्के रंग के पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में कोशिश करें कि सूती कपड़े ही पहनें।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा योग अभ्यास सेशन आयोजित, आमजन में जागरुकता का संचार

फाजिल्का, 16 जून (बख्शी सिंह/जसप्रीत सिंह) = अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 65 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र आज 16 जून 2025 को प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक शहीद भगत सिंह स्टेडियम, फाजिल्का में आयोजित किया गया, जिसमें आमजन को योग के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य प्रमुख रहा। योग अभ्यास सत्र की अगुवाई 65 वाहिनी के कमांडेंट वीरेन्द्र बहादुर यादव और परिवार कल्याण केंद्र की मुख्य कार्यकारी अनीता यादव द्वारा की गई। इस अवसर पर वाहिनी के 9 अधिकारी, 24 अधीनस्थ अधिकारी, 91 अन्य कार्मिक तथा परिवार कल्याण केंद्र की महिलाएं और बच्चे सहित कुल 56 बावा परिवार सदस्य मौजूद रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक दिन पूर्व ही



स्टेडियम में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग योग प्रशिक्षक, मंच, ध्वनि व्यवस्था तथा प्रेरणादायक योग गीतों की गूंज से स्टेडियम में मौजूद बच्चे, बच्चियां, ट्रेनर और सुबह की सैर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के बीच विशेष रुचि देखी गई इस आयोजन में सीमा सुरक्षा बल के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी स्वेच्छा से भाग लिया और योगाभ्यास किया। गौरतलब है कि

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किया गया। तब से हर वर्ष 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है, जो ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष का योग दिवस, जो 11वीं वर्षगांठ है, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित रहेगा। आयोजन का उद्देश्य योग के माध्यम से समग्र कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भारत योग की जन्मभूमि है और योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुलन का भी माध्यम है।

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच पंजाब में बढ़ी टेंशन, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान मोहाली 16 जून (निस) ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पंजाब के लोगों के लिए चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारत से अब देशों को निर्यात होने वाले बासमती चावल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पंजाब की है। भारत के 48,000 करोड़ रुपये के बासमती चावल निर्यात में पंजाब का 40वें योगदान है। इसमें से करीब 25वें बासमती चावल ईरान को निर्यात किया जाता है। इजरायल के हमले के बाद पंजाब बासमती राइस मिलर्स का कहना है उन्होंने ईरान के व्यापारियों से बात की तो उनका कहना कि अगर युद्ध लंबा चला तो कुछ भी कहना मुश्किल है। युद्ध के हालातों के बीच समुद्री मार्ग और बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं जिसके चलते माल भेजना संभव नहीं है। वहीं इससे पहले करीब 2 साल पहले जब ईरान और इजरायल के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी, तब भी चावल व्यापार प्रभावित हुआ था। पंजाब में इस समय धान का सीजन चल रहा है और अगर ईरान-इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है तो पंजाब के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

लुधियाना पश्चिम में चुनाव प्रचार ...

पृष्ठ एक का शेष ...वह रविवार को होटल फार्च्यून में भाजपा उम्मीदवार जीवन गुप्ता के प्रचार के लिए आई थीं।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पूर्व की आप सरकार ने पिछले एक दशक में विधानसभा में एक भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैट की रिपोर्ट पेश नहीं की जबकि उनकी अपनी सरकार ने छह रिपोर्टें पेश कीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने खारिज मंत्रियों और अधिकारियों को पंजाब ले आए हैं। वे अब पंजाब सरकार का लाभ उठा रहे हैं। आप ने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने यहां बुलेट ट्रेन के बजाय चिट्ठा एक्सप्रेस चलाई। अब चिट्ठा (हेरोइन) स्कूलों के बाहर और हर गांव और शहर में उपलब्ध है। इस दौरान गुप्ता ने पंजाबी मतदाताओं द्वारा बदलाव लाने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों को केजरीवाल को सता से बाहर करने में 10 साल लगे, लेकिन पंजाबी एक अच्छा विकल्प बनाने के लिए काफी समझदार हैं, और वे पूरी तरह से समझ गए हैं कि अब आप सरकार को यहां से भी विदाई देने का समय आ गया है।

लुधियाना उपचुनाव कांग्रेस का अंतिम प्रचार आज लुधियाना पश्चिमी विधान सभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का मंगलवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में एक बार फिर एकजुट होने का संकेत देगी। चुनाव प्रचार से अभी तक कांग्रेस के प्रदेश प्रधान व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा दिखाई नहीं दिए थे।

राजा केवल कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु के नामांकन के मौके पर ही दिखे थे। अब मंगलवार को पार्टी के नेता एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे। इस आंशिक बदली परिस्थिति के लिए प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने अहम भूमिका निभाई है। बघेल सोमवार को पार्टी दफ्तर में अकाली दल के कुछ नेताओं को पार्टी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने अहम बैठक की।

CHARDIKLA TIME TV

24X7 INFOTAINMENT CHANNEL

SCAN TO DOWNLOAD OUR APP

SCAN TO WATCH LIVE

Available **FREE!** at following Platforms

TATA PLAY

CH. NO. 1945

dishtv

CH. NO. 340

VIDEOCON d2h

CH. NO. 779

airtel digital TV

CH. NO. 557

dishtv

CH. NO. 1152

unichord

CH. NO. 581

Jio TV

Available **Worldwide** on

slings

in USA

dish

CH. NO. 748-008

amazon fireTV

YouTube

TikTok

Roku TV

eBaba

CH. NO. 581

ANGOTV

FREE TV

MOBI

FREE TV

EKOM FLUX

CHARDIKLA MEDIA NETWORK

Also available on Social Media @

f

o

o

o

o

/Chardikla Time TV

f

o

o

o

o

/CK Time TV North America

f

o

o

o

o

/Chardikla Time TV Live

@

ceo@cktimetv.com

www.timetv.news

www.cktimetv.com